



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 5—मई 11, 2012 (वैसाख 15, 1934)

No. 18]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 5—MAY 11, 2012 (VAISAKHA 15, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2012

थल सेना शाखा

सं. 147, दिनांक 23 मार्च 2012--राष्ट्रपति महोदय, दिलीप सिंह गौड़, सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी को, दिनांक 02 जनवरी 2012 से, वेतन बैंड-3 रुपए 15,600--39,100/- ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- के वेतनमान में, सिविलियन सुरक्षा अधिकारी (युप ए राजपत्रित) के रूप में, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

अँगना राम  
अवर सचिव

सेना सचिव शाखा

सं. 148, दिनांक 23 मार्च 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टि जनरल के मूल रैंक में

(आईसी-30392) मेजर जनरल, आर पी दस्ताने, एवीएसएम, वीएसएम, आर्टी (जीसी), 14 नवम्बर 2010

(आईसी-30482) मेजर जनरल, विनोद भाटिया, एवीएसएम, एसएम, पैरा, 14 नवम्बर 2010

(आईसी-27942) मेजर जनरल, एनबी सिंह, एवीएसएम, वीएसएम, ईएमई, 25 नवम्बर 2010

(आईसी-30118) मेजर जनरल, ए मुखर्जी, एवीएसएम, आर्टी 01 दिसम्बर 2010

(आईसी-30503) मेजर जनरल, जे पी नेहरा, एवीएसएम, मद्रास, 10 दिसम्बर 2010

(आईसी-30687) मेजर जनरल, संजीव लांगेर, एवीएसएम, 69 एआर, 15 दिसम्बर 2010

(आईसी-30687) मेजर जनरल, ए के चौधरी, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, महार, 24 दिसम्बर 2010

ब्रिगे के मूल रैंक में

(आईसी-38491) कर्नल, बी पाठक, आर्टी, 26 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-39418) कर्नल, ए के त्यागी, आईसी, 01 जून 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 02 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-38603) कर्नल, जे एस पठानिया, एओसी, 01 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 13 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-39656) कर्नल, डी शर्मा, वीएसएम, 4 जीआर, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 15 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-39696) कर्नल, जे टी चाको, एओसी, 30 मार्च 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 16 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-39709) कर्नल, एस एस सलूजा, एओसी, 01 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-39807) कर्नल, बी ए कुमार, आईसी, 01 दिसम्बर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 18 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-37816) कर्नल, आर पी एस राय, एओसी, 01 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 19 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-37838) कर्नल, एन कुमार, एओसी, 01 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 19 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-39871) कर्नल, एस के उपाध्याय, एसएम, गढ़वाल राईफल, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 21 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-39872) कर्नल, अनिल कपूर, वीएसएम, ईएमई, 29 अक्टूबर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 21 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-39881) कर्नल, राम सोमतीया, एओसी, 01 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 21 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-40013) कर्नल, ए के ठाकुर, आर्टी, 26 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 27 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-40096) कर्नल, एम एम हुसैन, एसएम, आर्टी, 20 अगस्त 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 30 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-40097) कर्नल, रजन कोक्षर, एओसी, 16 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 30 जून 2008 से दी जाएगी

(आईसी-38231) कर्नल, सुनील चंद्र, आईसी, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2008 से दी जाएगी

(आईसी-37569) कर्नल, एम पी सिंह, आर्टी, 11 सितम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 03 जनवरी 2008 से दी जाएगी

(आईसी-38643) कर्नल, आर एस सलारीया, आर्टी, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 06 जनवरी 2008 से दी जाएगी

(आईसी-38696) कर्नल, एन पी सिंह, आर्मड, 01 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 10 जनवरी 2008 से दी जाएगी

(आईसी-38750) कर्नल, एम एम नरावने, सिख लाई, 19 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 13 जनवरी 2008 से दी जाएगी

(आईसी-38768) कर्नल, रुस्तम पटनायक, एसएम, वीएसएम, महार, 28 जून 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 15 जनवरी 2008 से दी जाएगी

(आईसी-38821) कर्नल, जे एस कुमार, वीएसएम, एओसी, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 16 जनवरी 2008 से दी जाएगी

(आईसी-38832) कर्नल, एस एन भादुरी, आर्टी, 01 जुलाई 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17 जनवरी 2008 से दी जाएगी

(आईसी-37685) कर्नल, हरजिंदरजीत सिंह, एओसी, 10 अगस्त 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 20 जनवरी 2008 से दी जाएगी

(आईसी-39121) कर्नल, वी पी शाही, एओसी, 09 सितम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 25 जनवरी 2008 से दी जाएगी

आर बी अस्थाना  
निदेशक/एमएस(एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 149, दिनांक 26 मार्च 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के पद पर

विंग कमांडर ए मेहता (एमआर-05517पी), 01 दिसम्बर 2011

सर्जन कमांडर से सर्जन कौप्टन (व समकक्ष) के पद पर

सेना शाखा

ए भारद्वाज (एमआर-06451डब्ल्यू), 31 मार्च 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है

सं. 151, दिनांक 27 मार्च 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

डी राघवन (एमआर-06033एफ), 04 मार्च 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है

घनश्याम स्वर्गायशि (एमएस-15751वाई) (एमआर-09229ए), एएमसी, 25 अक्टूबर 2008

एम एस होनवाड (एमआर-06037एक्स), 08 मार्च 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जुलाई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना की सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

आर शंकरन (एमआर-06039एच), 04 मार्च 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है

अंकुश गुप्ता (एमएस-15846वाई) (एमआर-09230पी), एएमसी, 16 जुलाई 2009

पी ए देशमुख (एमआर-06043एल), 04 मार्च 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 दिसम्बर 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना की सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

यश पांडे

ब्रिगेडियर

उप महा स से चि से (मा. सं.)

जागृति वर्मा (एमआर-09152एच), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

कप्तान के पद पर

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

पुलकित तुषार (एमआर-09024एल), एएमसी, 10 फरवरी 2011

पारिजात दास (एमआर-09002एम), एएमसी, 10 फरवरी 2011

अमन अवस्थी (एमआर-08930डब्ल्यू), एएमसी, 09 अगस्त 2010

परमेन्द्र सिंह रूपराय (एमआर-08872एक्स), एएमसी, 11 फरवरी 2010

अभिषेक मलिक (एमआर-08871पी), एएमसी, 11 फरवरी 2010

यश पांडे

ब्रिगे

उप महा स से चि से (मा. सं.)

सं. 150, दिनांक 26 मार्च 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

लेफ्टि कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

कर्नल माला सिंह (एनआर-17332ए), 16 अगस्त 2010

कर्नल पद्मिनी मोहन (एनआर-16940पी), 01 मई 2010

लेफ्टि कर्नल (टीएस) से ले कर्नल (सेलेक्ट)

ले कर्नल माला सिंह (एनआर-17332ए), 28 अप्रैल 2007

ले कर्नल पद्मिनी मोहन (एनआर-16940पी), 14 सितम्बर 2006

मेजर से लेफ्टि कर्नल (टीएस)

लेफ्टि कर्नल शशिकला (एनआर-16847एन), 29 जुलाई 1999

(कमीशन तिथि : 16 जुलाई 1979, 13 दिन की अनुपस्थिति 17 दिसम्बर 1987 से 29 दिसम्बर 1987, बिना वेतनमान के द्वारा नियमित की गई)

कौप्टन से मेजर

मेजर शशिकला (एनआर-16847एन), 29 जुलाई 1992

(कमीशन तिथि : 16 जुलाई 1979, 13 दिन की अनुपस्थिति 17 दिसम्बर 1987 से 29 दिसम्बर 1987, बिना वेतनमान के द्वारा नियमित की गई)

जे के ग्रेवाल

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक, एमएनएस

सेना शाखा

सं. 152, दिनांक 27 मार्च 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

(आईसी-66378) सतीश कुमार गौतम, एसी

(आईसी-66379) शैलेंद्र सिंह राठौड़, एसी

(आईसी-66381) वशीम अहमद, आर्टी

(आईसी-66382) प्रमोद एम, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66383) पंकज शर्मा, इन्फैन्ट्री

- (आईसी-66385) पुष्कर सिंह सिरौही, एएससी  
 (आईसी-66386) जगमाल सिंह वाघेला, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66387) करुणाकर डिमरी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66388) हेमन्त यादव, मैक इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66389) मनीष जलाल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66391) अमित कुमार क्षेत्री, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66395) ए श्रीनिवासुलू, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66396) एस अबिलाश नायर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66397) मिरियाला नवीन, एओसी  
 (आईसी-66398) काशिद अमित मधुकर, आर्टी  
 (आईसी-66399) राकेश कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66400) शंकर राम मेनन पी, आर्टी  
 (आईसी-66401) कुलवीर सिंह, आर्टी  
 (आईसी-66402) राजीव कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66403) एल विन्सेंट पैटन, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66405) सन्नी गिल, एएससी  
 (आईसी-66409) देशमुख जयदीप जगन्नाथ, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66410) गौरव भटनागर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66411) सूरज अब्राहम, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66412) मोहन ज्ञानदेव शिंदे, आर्टी  
 (आईसी-66413) रोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66415) अरविंद सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66416) शिन्दे प्रवीन पोपट, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66417) अजय दहिया, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66418) सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66419) निरंजन, आर्टी  
 (आईसी-66421) अनिल कौशिक, एसी  
 (आईसी-66422) जय गगन मन्हास, एओसी  
 (आईसी-66424) पंडित चिन्मय महेश चन्द्रा, आर्टी  
 (आईसी-66425) प्रदीप नौटियाल, आर्टी  
 (आईसी-66426) जगजीत सन्धू, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66427) सलम प्रेमजीत सिंह, आर्टी  
 (आईसी-66429) अशोक कुमार तिवारी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66430) हिमांशु ईस्सर, एसी  
 (आईसी-66431) हरताज सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66432) करनी सिंह भाटी, आर्टी  
 (आईसी-66433) रजनीश जोशी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66434) टी असुथोंग, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66435) विवेक यादव, एसी  
 (आईसी-66437) जोसेफ क्रिष्टी टारफिल जे, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66440) जीनू तंगगपन, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66441) सुमित, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66442) युद्धिठिर राठौर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66447) विनोद निश्चल, आर्टी  
 (आईसी-66448) समिद्ध बनर्जी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66449) तनुज सिंह, आर्टी  
 (आईसी-66450) दीपक कुमार, एसी  
 (आईसी-66451) सिद्धार्थ शर्मा, एएससी  
 (आईसी-66452) प्रदीप सहराबत, मैक इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66453) राजपाल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66455) सौरभ भागवत, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66456) शैबाल राय चौधरी, आर्टी  
 (आईसी-66457) नगरकोटी नरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66458) अण्णप्पा चिदानन्द करजगी, आर्टी  
 (आईसी-66459) बलबीर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66461) जय नेगी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66462) मनमथ देवरा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66466) अजय सिंह, मैक इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66469) आनंद कुमार, एएससी  
 (आईसी-66470) हितेन्द्र प्रधान, एओसी  
 (आईसी-66471) उत्सव सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66472) विकास सिंह, आर्टी  
 (आईसी-66474) अभिषेक पाल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66475) वाय शरत, आर्टी  
 (आईसी-66477) गौरव कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-66478) देवन्दू घोषाल, आर्टी  
 (आईसी-66480) विनोद कुमार, एओसी  
 (आईसी-66481) चिपलुन्कर अमैया आर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66482) रंजीत सिंह भदौरिया, इंफैंट्री

(आईसी-66483) नितिन भाटिया, इंफैंट्री

(आईसी-66484) जी राकुल, आर्टी

--19 अक्टूबर 2011

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (मैन)

कप्तान से मेजर

(एसएस-41220) अमरजीत सिंह, मैक, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41223) प्रतीक प्रभाकर, आर्टी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41224) अमित औक्ता, इंफैंट्री, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41225) जसबीर सिंह, एओसी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41240) आशीष अगाशे, एएडी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41242) धमेन्द्र भट्ट, इंफैंट्री, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41252) भानू प्रताप सिंह भलवाल, इंफैंट्री, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41262) पी डेलियनमवी, गांगटे, इंफैंट्री, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41265) राजेश प्रकाश सौलंकी, इंफैंट्री, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41274) राम नरेश सिंह, एससी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41287) अभिनव हांडा, एससी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41291) दीपक साही, आर्टी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41293) दिग्विजय अन्नासाहेब देशमुख, आर्टी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41300) बाज़तकर अमोल संजीव, मैक, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41304) पुष्पेन्द्र पाल सिंह, एसी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41305) देवाशीष मिश्रा, आर्टी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41314) अहिबम बसंत सिंह, आर्टी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41325) राकेश कुमार, एससी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41332) ब्रिजेश सिंह, इंफैंट्री, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41336) संदीप यादव, आर्टी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41337) आत्मा प्रकाश, एओसी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41339) आशीष त्रिपाठी, एएडी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41340) महाजन अनुप अमोल, आर्टी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41349) गौरव सूद, एसी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41352) प्रद्यूत घोसाल, आर्टी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41364) वैभव सिंह, एसी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41365) तुषार चौहान, इंफैंट्री, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-41366) ए डी शर्मा, एओसी, 19 मार्च 2005, एसएससी-79 (एनटी), 19 अक्टूबर 2005, 19 अक्टूबर 2011

(एसएस-42654) वरुण परमार, एएडी, 22 सितम्बर 2005, एसएससी-27 (टी), 22 अक्टूबर 2005, 22 अक्टूबर 2011

स्थायी कमीशन

लेफ्टि से कप्तान

(आईसी-66651) अर्जुन सिंह चौहान, इंफैंट्री, 17 अप्रैल 2008

(आईसी-72833) शरब बाबर, मैक इंफैंट्री, 18 अक्टूबर 2008

(आईसी-72977) संदीप सिंह, सिग्नल्स, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72978) संतोष कुमार, ईएमई, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72979) पठान यूनुसखान शेरखान, ईएमई, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72980) नितिन शर्मा, ईएमई, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72981) अभिमन्यु महाजन, ईएमई, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72982) दिनेश कुमार खत्री, ईएमई, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72983) मलकीत सिंह लवाना, सिग्नल्स, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72984) सुखदेव सिंह, ईएमई, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72986) अमित कुमार, ईएमई, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72990) अरूणदीप गुप्ता, सिग्नल्स, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72992) राहुल चमन कौल, इंजीनियर्स, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72993) बिश्वजीत साहू, इंजीनियर्स, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72994) प्रभात सारस्वत, ईएमई, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72997) साठे सुबोध विलास, ईएमई, 18 अक्टूबर 2006

(आईसी-72998) क्षितिज कुमार, सिग्नल्स, 18 अक्टूबर 2006

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एसएससीडब्ल्यू)

लेफ्टि से कप्तान

(एसएस-44495) कोमल एस, ईएमई, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44497) काले मिनाक्षी राजेश्वर, सिग्नल्स, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44500) संचिता झा, इंजीनियर्स, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44501) वनीता पट्टी, सिग्नल्स, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44502) साक्षी चीमा, ईएमई, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44519) जस्मीन मिश्रा, ईएमई, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44528) अश्वथी गणपथ, ईएमई, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44540) स्वाती रावत, ईएमई, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44544) राजिन्दर कौर, ईएमई, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44553) गीता शर्मा, सिग्नल्स, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44557) टीना सिंह, ईएमई, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44559) शिखा सिंह, सिग्नल्स, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44562) श्रुति श्रीवास्तव, सिग्नल्स, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44567) नेहा सिंह चौहान, सिग्नल्स, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

(एसएस-44569) अंशु उपाध्याय, इंजीनियर्स, 22 मार्च 2009, एसएससीडब्ल्यू 05 (टी), 22 अप्रैल 2009, 22 अप्रैल 2011

प्रभात रॉस  
उप निदेशक  
एम एस 8सी

थल सेना विभाग

सं. 153, दिनांक 28 मार्च 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार राम ईश्वर राय (जेसी-327088एक्स), 01 नवम्बर 2011

सूबेदार राम स्वरूप (जेसी-236827एल), 01 दिसम्बर 2011

सूबेदार हीरा लाल पटेल (जेसी-840705डब्ल्यू), 01 जनवरी 2012

स्थाई सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) एम करिया पेरुमाल (जेसी-841485के), 01 दिसम्बर 2011

स्थाई सूबेदार(जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार कृष्णा पदा घोष (जेसी-297851एक्स), 01 जून 2011

नायब सूबेदार दर्वान सिंह (जेसी-539247ए), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार मालुक सिंह (जेसी-412264एफ), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार गंगा राम (जेसी-201847ए), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-592360डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार सोनम मुरुप (जेसी-220838एन), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार लव कुमार (जेसी-558561एच), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार केहर सिंह (जेसी-508354ए), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार रनधीर सिंह (जेसी-498743के), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार फारूख अहमद, एस एम (जेसी-592631एच), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार नरायन सिंह बिष्ट (जेसी-569027एल), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार सूरज भान जंघू (जेसी-403069एच), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-518320ए), 01 जनवरी 2012  
स्थाई सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) तरुण कुमार त्रिपाठी (जेसी-842133वाई),  
01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार दया नाथ यादव (सं. 14342886वाई अब जेसी-842989के),  
09 सितम्बर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011)

हवलदार देवास्या पी पी (सं. 10289726डब्ल्यू अब जेसी-843027एम),  
09 दिसम्बर 2011\*\*

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 1265034एफ अब जेसी-843030एम),  
28 नवम्बर 2011\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011)

हवलदार मोहम्मद अक्थर (सं. 2866985वाई अब जेसी-843036एन),  
22 नवम्बर 2011\*\*\*

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 4054953पी अब जेसी-843037डब्ल्यू),  
15 दिसम्बर 2011\*\*\*

हवलदार चेत राम (सं. 6467985डब्ल्यू अब जेसी-843040डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2011\*\*\*

हवलदार नवल किशोर (सं. 10389065डब्ल्यू अब जेसी-843041वाई),  
28 नवम्बर 2011\*\*\*

हवलदार टिक बहादुर गुर्ग (सं. 5242027एक्स अब जेसी-843042एफ),  
10 दिसम्बर 2011\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011)

हवलदार सुरेन्द्र (सं. 10135138ए अब जेसी-843049एल),  
18 नवम्बर 2011\*\*\*

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं. 1553740पी अब जेसी-843050ए),  
01 दिसम्बर 2011\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011)

हवलदार मोनु राम सिंह (सं. 10478984ए अब जेसी-843054डब्ल्यू),  
16 दिसम्बर 2011\*\*\*\*

हवलदार सिमर सिंह (सं. 13738044एन अब जेसी-843059पी),  
07 दिसम्बर 2011\*\*\*\*

हवलदार श्याम नारायन सिंह (सं. 4257185एन अब जेसी-843061एम),  
07 दिसम्बर 2011\*\*\*\*

हवलदार रामफल सिंह (सं. 3980222वाई अब जेसी-843062पी),  
12 दिसम्बर 2011\*\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011)

हवलदार अलियास खान (सं. 8824229डब्ल्यू अब जेसी-843067एन),  
01 दिसम्बर 2011\*\*\*\*\*

हवलदार चरन सिंह (सं. 14355964के अब जेसी-843068डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2011\*\*\*\*\*

हवलदार टी अशोक कुमार (सं. 10328272एम अब जेसी-843069वाई),  
01 दिसम्बर 2011\*\*\*\*\*

हवलदार ए भास्करन (सं. 10328190के अब जेसी-843070एन),  
01 दिसम्बर 2011\*\*\*\*\*

हवलदार सोमन पी (सं. 10289666एम अब जेसी-843071डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2011\*\*\*\*\*

हवलदार मुकुन्दन के वी (सं. 10289868एन अब जेसी-843075एम),  
01 दिसम्बर 2011\*\*\*\*\*

हवलदार के टि नारायणन कुटी (सं. 10328189पी अब  
जेसी-843076पी), 01 दिसम्बर 2011\*\*\*\*\*

हवलदार देवन सी (सं. 10328169एफ अब जेसी-843077एक्स),  
06 जनवरी 2012\*\*\*\*\*

हवलदार ए सिमियोन राजु (सं. 10451500एल अब जेसी-843080एक्स),  
01 दिसम्बर 2011\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011)

सेना डाक सेवा कोर

सूबेदार/लिपिक (एसडी) से सूबेदार मेजर/लिपिक (एसडी)

सूबेदार/क्लर्क (एसडी) कनवाल सिंह (जेसी-834094डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी) से सूबेदार/लिपिक (एसडी)

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) राजेन्द्र सिंह (जेसी-834393पी),  
11 नवम्बर 2011\*

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) किरतन सिंह (जेसी-834396एच),  
01 नवम्बर 2011

\*(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

प्रदीप कुमार  
अपर सचिव

## थल सेना विभाग

सं. 154, दिनांक 28 मार्च 2012--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना  
सेना शिक्षा कोर  
सूबेदार रैंक में

नायब सूबेदार ब्रिज लाल ठाकुर (जेसी-803755के), 11 अक्टूबर 2011@

नायब सूबेदार काइजार कमाल सलाउद्दिन आजाद (जेसी-803760पी), 12 सितम्बर 2011

@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुनील कुमार ठाकुर (जेसी-803763एच), 04 अक्टूबर 2011#

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-803764एल), 01 अक्टूबर 2011

#(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार वीरपाल (जेसी-803765एन), 04 नवम्बर 2011\$

नायब सूबेदार रनवीर सिंह (जेसी-803766डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार सोहन राम लेगा (जेसी-803767वाई), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार वीरेन्द्र कुमार (जेसी-803768एफ), 24 दिसम्बर 2011\$

नायब सूबेदार गजपाल सिंह (जेसी-803769के), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-803770वाई), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार पुत्तू लाल शाक्य (जेसी-804010एच), 01 नवम्बर 2011

\$(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र झा (जेसी-803771एफ), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार योगेन्द्र प्रसाद (जेसी-803773एम), 02 दिसम्बर 2011\*

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-803774पी), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार कमलेश कुमार सिंह (जेसी-803775एक्स), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार रमेश सिंह गुसाई (जेसी-803777एच), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार अनिल बोरा (जेसी-803779एन), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार जय कृष्ण टिक्कू (जेसी-803781एल), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार दिनेश कुमार शर्मा (जेसी-803782एन), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-803783डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार ब्रहमानन्द द्विवेदी (जेसी-803784वाई), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार श्याम बिहारी राम (जेसी-803786के), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार योगेश (जेसी-803787एम), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार हिम्मत सिंह (जेसी-803788पी), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार अनुप कुमार राय (जेसी-803791पी), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार राम प्रकाश शुक्ला (जेसी-803792एक्स), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार समर बहादुर सिंह (जेसी-803793ए), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार विजय कुमार शर्मा (जेसी-803794एच), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार भुपिन्दर सिंह (जेसी-803796एन), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-803798वाई), 02 दिसम्बर 2011\*

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-803801एन), 01 दिसम्बर 2011

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रमोद चन्द्र पान्डे (जेसी-803803वाई), 06 जनवरी 2012&

नायब सूबेदार नारायण डकुवा (जेसी-803804एफ), 04 जनवरी 2012&

नायब सूबेदार ए मोहन (जेसी-803805के), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार/लिपिक हरेन्द्र सिंह (जेसी-804012एन), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार/लिपिक नन्दन सिंह (जेसी-804064के), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार/लिपिक समय सिंह गुर्जर (जेसी-804150पी), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार/लिपिक मीर सिंह (जेसी-804189एफ), 01 जनवरी 2012



&(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)	हवलदार विजय कुमार बी (सं. 9511323वाई अब जेसी-804544एन), 01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार रैंक में	हवलदार प्रदीप कुमार चौहान (सं. 9511324एफ अब जेसी-804545डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार प्रसेनजित कुमार घोष (सं. 9511233एक्स अब जेसी-804500डब्ल्यू), 01 अगस्त 2011	हवलदार कैलाश चन्द्र धल (सं. 9511325के अब जेसी-804546वाई), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार राकेश कुमार (सं. 9511272डब्ल्यू अब जेसी-804523एक्स), 01 सितम्बर 2011	हवलदार कैलाश चन्द (सं. 9511328एक्स अब जेसी-804547एफ), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार अबू एम (सं. 9511280पी अब जेसी-804526एल), 19 सितम्बर 2011@	हवलदार सुरेश कुमार दास (सं. 9511330पी अब जेसी-804548के), 01 दिसम्बर 2011
@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जायेगी)	हवलदार श्री रामकिशोर (सं. 9511331एक्स अब जेसी-804549एम), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार/लिपिक एजाजुदीन (सं. 9510171डब्ल्यू अब जेसी-804532वाई), 22 नवम्बर 2011*	हवलदार पवित्रन वी (सं. 9511332ए अब जेसी-804550एफ), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार सुधीर कुमार मार्तण्ड (सं. 9511293एम अब जेसी-804533एफ), 15 अक्टूबर 2011*	हवलदार पाला राम पनवर (सं. 9511333एच अब जेसी-804551के), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार राकेश कुमार (सं. 9511296ए अब जेसी-804534के), 21 अक्टूबर 2011*	हवलदार कौशल कुमार सिंह (सं. 9511334एल अब जेसी-804552एम), 01 दिसम्बर 2011
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जायेगी)	हवलदार रामप्रकाश (सं. 9511335एन अब जेसी-804553पी), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार/लिपिक कुलदीप सिंह (सं. 9510172वाई अब जेसी-804535एम), 01 नवम्बर 2011	हवलदार अनिल कुमार लेन्का (सं. 9511336डब्ल्यू अब जेसी-804554एक्स), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार/लिपिक सुदामा यादव (सं. 9510176पी अब जेसी-804536पी), 01 नवम्बर 2011	हवलदार बेन्नी के पी (सं. 9511341एफ अब जेसी-804555ए), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार आनंद सिंह जोधा (सं. 9511297एच अब जेसी-804537एक्स), 01 नवम्बर 2011	हवलदार कर्ण पाल (सं. 9511343एम अब जेसी-804556एच), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार के कुलवन्त सिंह (सं. 9511300एक्स अब जेसी-804538ए), 24 नवम्बर 2011\$	हवलदार सुधाकरन पिल्लै के (सं. 9511347एच अब जेसी-804557एल), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार सुनील कुमार पी (सं. 9511302एच अब जेसी-804539एच), 01 नवम्बर 2011	हवलदार डी चन्द्रशेखर (सं. 9511348एल अब जेसी-804558एन), 06 दिसम्बर 2011@@
हवलदार राम पाल (सं. 9510118एल अब जेसी-804540एक्स), 01 नवम्बर 2011	हवलदार श्री प्रताप सिंह (सं. 9511350एच अब जेसी-804559डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार कैलाश चन्द (सं. 9511316एच अब जेसी-804541ए), 01 नवम्बर 2011	हवलदार श्री आदित्य कुमार मिश्रा (सं. 9511353डब्ल्यू अब जेसी-804560एल), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार बीरपाल सिंह (सं. 9511317एल अब जेसी-804542एच), 01 नवम्बर 2011	हवलदार शंकर दत्त (सं. 9511354वाई अब जेसी-804561एन), 01 दिसम्बर 2011
\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)	हवलदार चन्दर प्रकाश फुलोरिया (सं. 9511355एफ अब जेसी-804562डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011
हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 9511322डब्ल्यू अब जेसी-804543एल), 01 दिसम्बर 2011	

हवलदार कोरवी यल्लप्पा (सं. 9511356के अब जेसी-804563वाई),  
01 दिसम्बर 2011

हवलदार शैलेन्द्र सिंह सिसोदिया (सं. 9511358पी अब  
जेसी-804564एफ), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार अय्युब अली (सं. 9511361पी अब जेसी-804565के),  
01 दिसम्बर 2011

हवलदार योगेन्द्र सिंह (सं. 9511363ए अब जेसी-804566एम),  
01 दिसम्बर 2011

@@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार/लिपिक राधे शाम शर्मा (सं. 9510160के अब  
जेसी-804567पी), 01 जनवरी 2012

हवलदार/लिपिक चार्ल्स वर्की (सं. 9510192एम अब  
जेसी-804568एक्स), 01 जनवरी 2012

हवलदार/लिपिक पेटुगाडि श्रीनिवास राव (सं. 9510193पी अब  
जेसी-804569ए), 01 जनवरी 2012

हवलदार/लिपिक शाह आलम (सं. 9510194एक्स अब  
जेसी-804570पी), 01 जनवरी 2012

हवलदार राजेन्द्र सिंह हाडा (सं. 9511364एच अब जेसी-804572ए),  
01 जनवरी 2012

हवलदार बलजीत राम (सं. 9511369एफ अब जेसी-804574एल),  
04 जनवरी 2012#

हवलदार हितेन्द्र सिंह रावत (सं. 9511370डब्ल्यू अब  
जेसी-804575एन), 03 जनवरी 2012#

हवलदार विक्रम महाशब्दे (सं. 9511372एफ अब  
जेसी-804576डब्ल्यू), 03 जनवरी 2012#

हवलदार मनोज कुमार मिश्र (सं. 9511375पी अब  
जेसी-804577वाई), 01 जनवरी 2012

हवलदार राजीव कुमार पाण्डे (सं. 9511378एच अब  
जेसी-804579के), 01 जनवरी 2012

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

प्रेम प्रकाश  
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 155, दिनांक 29 मार्च 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
पदोन्नतियां करते हैं :-

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

दीपक दास (सं. 14617536ए अब जेसी-765529ए), 13 दिसम्बर  
2011/01 दिसम्बर 2011 \*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (जी सी ई) के रैंक में  
पपीन्द्र सिंह (सं. 14628337एम अब जेसी-766704डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2012

सत्य प्रकाश यादव (सं. 14630033एन अब जेसी-766706एफ),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 \*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में  
हरे कृष्णा (सं. 14601278एफ अब जेसी-766707के), 02 जनवरी  
2012/01 जनवरी 2012 \*

निर्मल ऐक्का (सं. 14618160डब्ल्यू अब जेसी-766708एम),  
06 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 \*

वेगी राम कृष्णा (सं. 14619978एक्स अब जेसी-766709पी),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 \*

कमलेश कुमार (सं. 14624880एन अब जेसी-766710के),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 \*

यमली श्रीनिवासु (सं. 14625729पी अब जेसी-766711एम),  
01 जनवरी 2012

वानी जितेन्द्र मधुकर (सं. 14626935एल अब जेसी-766713एक्स),  
01 जनवरी 2012

मनोज कुमार तिवारी (सं. 14626953एन अब जेसी-766714ए),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 \*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में  
निरज कुमार (सं. 14621611डब्ल्यू अब जेसी-766716एल),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 \*

अट्टडा श्रिधर राव (सं. 14621617एक्स अब जेसी-766717एन),  
01 जनवरी 2012

अजय शंकर सिंह (सं. 14621674वाई अब जेसी-766719वाई),  
01 जनवरी 2012

रामदीन चौधरी (सं. 14621681पी अब जेसी-766720एन),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 \*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में  
अभीजित पराय (सं. 14622639एच अब जेसी-766721डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2012

भगवान प्रसाद यादव (सं. 14601710एक्स अब जेसी-766725एम),  
01 जनवरी 2012

संजीव कुमार सिंह (सं. 14621323के अब जेसी-766536एच),  
01 जनवरी 2012

राम राज कुमार (सं. 14622711एन अब जेसी-766722वाई),  
01 जनवरी 2012

विनोद कुमार यादव (सं. 14625135ए अब जेसी-766723एफ),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

असूदीन (सं. 14606668एन अब जेसी-766726पी), 04 जनवरी  
2012/01 जनवरी 2012\*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेटवर्किंग के रैंक में  
के वीजयन (सं. 14620947के अब जेसी-766773एम), 02 जनवरी  
2012/01 जनवरी 2012\*

बलवीर सिंह (सं. 14611229एम अब जेसी-766774पी), 01 जनवरी  
2012

पवार शीवजी तुकाराम (सं. 14617630के अब जेसी-766775वाई),  
01 जनवरी 2012

प्रमोद कुमार यादव (सं. 14621036ए अब जेसी-766779एन),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

अजीत सिंह (सं. 14621651एक्स अब जेसी-766783डब्ल्यू),  
03 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

मनोज कुमार जी (सं. 14622767ए अब जेसी-766791पी),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

अमर नाथ शर्मा (सं. 14622177एफ अब जेसी-766786के),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

सुकालू राम (सं. 14621981डब्ल्यू अब जेसी-766789एक्स),  
01 जनवरी 2012

पुरुशोतम कुमार (सं. 14623722एम अब जेसी-766793ए), 01  
जनवरी 2012

राम प्रवेश यादव (सं. 14624886पी अब जेसी-766795एल),  
01 जनवरी 2012

नीशांथ सी के (सं. 14625056एल अब जेसी-766796एन),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

राज कुमार (सं. 14626948पी अब जेसी-766797डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2012

त्याग राज (सं. 14618075एन अब जेसी-766798वाई), 02 जनवरी  
2012/01 जनवरी 2012\*

सुनील कुमार एस (सं. 14618575एल अब जेसी-766800एल),  
01 जनवरी 2012

आर अरुमुगम (सं. 14618919वाई अब जेसी-766804एफ),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

ब्रिज भूषण सिंह बिस्ट (सं. 14621959एल अब जेसी-766807पी),  
04 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

प्रिया रंजन मालाकार (सं. 14622471एफ अब जेसी-766808एक्स),  
01 जनवरी 2012

मनोज कुमार यादव (सं. 14623070वाई अब जेसी-766809ए),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

रजनी कंत सिंघा (सं. 14623129एन अब जेसी-766810पी),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

बाल किशन (सं. 14624320एफ अब जेसी-766811एक्स),  
01 जनवरी 2012

सतीश चंद (सं. 14624469एच अब जेसी-766812ए), 02 जनवरी  
2012/01 जनवरी 2012\*

शिंदे चन्द्रकांत विलास आर (सं. 14624541एन अब जेसी-766813एच),  
01 जनवरी 2012

बीरू पकश्या मोहंती (सं. 14622451एन अब जेसी-766816डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2012

बीनेश काल्लियत (सं. 14622724एल अब जेसी-766818एफ),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

अर्जुन सिंह (सं. 14622905डब्ल्यू अब जेसी-766821एफ),  
01 जनवरी 2012

के नीलकंदान (सं. 14629517एन अब जेसी-766823एम),  
01 जनवरी 2012

समरजीत दास (सं. 14620956एल अब जेसी-766825एक्स),  
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन मेटॉलर्जी के रैंक में

लाल बहादुर (सं. 14613777एच अब जेसी-7668341एक्स),  
28 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

ओम प्रकाश माली (सं. 14616119एफ अब जेसी-766583ए),  
01 नवम्बर 2011

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

सतबीर सिंह (सं. 14590752एफ अब जेसी-766727एक्स),  
01 जनवरी 2012

दिनेश सिंह (सं. 14591464एफ अब जेसी-766730एक्स),  
01 जनवरी 2012

जतिन चन्द्र बौरा (सं. 14590439डब्ल्यू अब जेसी-766731ए),  
01 जनवरी 2012

राजेन्द्र सिंह (सं. 14591258एक्स अब जेसी-766729एच),  
01 जनवरी 2012

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो इलेक्ट बी व्हीकल के रैंक में

राज कुमार (सं. 14590995एम अब जेसी-766832एन), 06 जनवरी  
2012/01 जनवरी 2012\*

राम किशोर (सं. 14590406एल अब जेसी-766833डब्ल्यू),  
06 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राफ्टमैन टेक के रैंक में

हरेन्द्र राम (सं. 14609897के अब जेसी-766839एक्स), 04 जनवरी  
2012/01 जनवरी 2012\*

हवलदार से नायब सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी)  
के रैंक में

पटेल मुकेश कुमार रती लाल (सं. 14613602ए अब  
जेसी-766453एक्स), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

हवलदार से नायब सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में

सुनील कुमार (सं. 14612884एक्स अब जेसी-766451एम),  
14 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011\*

बंडुल जगन्नाथ हरी (सं. 14616075पी अब जेसी-766834वाई),  
17 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

हवलदार से नायब सूबेदार वैल्डर के रैंक में

ए मल्लेश (सं. 14654052एक्स अब जेसी-766746एच),  
01 जनवरी 2012

हवलदार से नायब सूबेदार अर्मायेन्ट टेक (ए एफ वी/ए डी)  
के रैंक में

संतोश कुमार दास (सं. 14593163डब्ल्यू अब जेसी-766837एम),  
16 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012\*

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक गन के रैंक में

सूबेदार कशाम अली मोल्लहा (जेसी-755503एक्स), 02 अगस्त  
2011/01 अगस्त 2011\*

सूबेदार अरविन्दाब्धन सी टी (जेसी-755495के), 08 अगस्त 2011/  
01 अगस्त 2011\*

सूबेदार चन्द्र मोहन सिंह (जेसी-755894एन), 01 अक्टूबर 2011

सूबेदार एन रवी (जेसी-756294एक्स), 01 अक्टूबर 2011

सूबेदार से सूबेदार मेजर क्लर्क (एसडी) के रैंक में

सूबेदार गंगाधर (जेसी-753507पी), 15 अगस्त 2011/01 मई 2011\*

सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-753591ए), 03 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर  
2011\*

सूबेदार बल राम सिंह (जेसी-753708एन), 01 दिसम्बर 2011

सूबेदार अदीत्या रंजन महापात्रा (जेसी-753777के), 09 जनवरी  
2012/01 जनवरी 2012\*

सूबेदार जयबीर सिंह सिरौही (जेसी-754110पी), 10 जनवरी 2012/  
01 जनवरी 2012\*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक एवीएन (एएफ) के रैंक में

सूबेदार कीशोर लाल (जेसी-755409एन), 01 सितम्बर 2011

सूबेदार राजू सुनागर (जेसी-755737एफ), 12 सितम्बर 2011/  
01 सितम्बर 2011\*

सूबेदार दन सिंह (जेसी-755411एल), 16 नवम्बर 2011/01 अक्टूबर  
2011\*

सूबेदार बिक्रम सिंह मेहता (जेसी-755606डब्ल्यू), 04 नवम्बर 2011/  
01 अक्टूबर 2011\*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक कम्प्यूनिक्शन के रैंक में

सूबेदार सुरेश कुमार तनवर (जेसी-755679एच), 01 सितम्बर 2011

सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-756009एन), 01 नवम्बर 2011

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

सूबेदार अरवींद कुमार (जेसी-755671डब्ल्यू), 05 सितम्बर 2011/  
01 सितम्बर 2011\*

सूबेदार नरेन्द्र सिंह गुसान (जेसी-755874ए), 01 अक्टूबर 2011

सूबेदार रमेश चंद (जेसी-755876एल), 01 अक्टूबर 2011

सूबेदार के दुराई सामी (जेसी-755481के), 14 नवम्बर 2011/  
01 सितम्बर 2011\*

सूबेदार राम बाबू शर्मा (जेसी-755878डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2011/  
01 नवम्बर 2011\*

सूबेदार गणेश सहनी (जेसी-755881डब्ल्यू), 04 नवम्बर 2011/  
01 नवम्बर 2011\*

सूबेदार वेनु गोपाल नायर जी (जेसी-755875एच), 08 नवम्बर 2011/  
01 नवम्बर 2011\*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक अप्टो इलैक्ट के रैंक में

सूबेदार सुजीत कुमार नाथ (जेसी-755745एफ), 01 सितम्बर 2011

सूबेदार सुसीलन के (जेसी-754793एन), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी  
2012\*

सूबेदार से सूबेदार मेजर डी डब्ल्यू के रैंक में

सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-760557एच), 10 अक्टूबर 2011/  
01 सितम्बर 2011\*

सूबेदार नवल सिंह (जेसी-760554पी), 03 जनवरी 2012/01 जनवरी  
2012\*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक नेटवर्किंग के रैंक में

सूबेदार राज कौर (जेसी-755771एफ), 01 अक्टूबर 2011

सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-755780एच), 01 अक्टूबर 2011

सूबेदार रवीन्द्र कुमार बेहरा (जेसी-755781एल), 10 अक्टूबर 2011/  
01 अक्टूबर 2011 \*

सूबेदार नारायण चन्द्र दास (जेसी-755908एच), 09 नवम्बर 2011/  
01 अक्टूबर 2011 \*

सूबेदार देवानंद शुक्ला (जेसी-755788पी), 01 नवम्बर 2011

सूबेदार चन्द्र शेखर (जेसी-755752डब्ल्यू), 15 दिसम्बर 2011/  
01 अक्टूबर 2011 \*

सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-755770वाई), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी  
2012 \*

सूबेदार से सूबेदार मेजर टेक अप्टो इलेक्ट के रैंक में

सूबेदार बैज नाथ तिवारी (जेसी-758947एम), 01 अक्टूबर 2011

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक रडार के रैंक में

सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-755901वाई), 01 नवम्बर 2011

सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-755902एफ), 01 नवम्बर 2011

सूबेदार राज पाल सिंह (जेसी-755903के), 08 नवम्बर 2011/  
01 नवम्बर 2011 \*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में

सूबेदार जिवन चन्द्र लोवहा (जेसी-755846एन), 01 नवम्बर 2011

सूबेदार मदन कुमार सिंह (जेसी-755848वाई), 04 नवम्बर 2011/  
01 नवम्बर 2011 \*

सूबेदार सुरेश सिंह यादव (जेसी-755841पी), 23 नवम्बर 2011/  
01 नवम्बर 2011 \*

सूबेदार राम शंकर पंडा (जेसी-754961एफ), 23 जनवरी 2012/  
01 जनवरी 2012 \*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक एवीएन (ईईएन) के रैंक में

सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-755740एफ), 03 नवम्बर 2011/  
01 नवम्बर 2011 \*

सूबेदार से सूबेदार मेजर आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी)  
के रैंक में

सूबेदार समदर लाल (जेसी-752306के), 01 दिसम्बर 2011

सूबेदार से सूबेदार मेजर टेक एस ए के रैंक में

सूबेदार मोहिन्द्र सिंह (जेसी-757349एच), 01 दिसम्बर 2011

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक एस ए के रैंक में

सूबेदार स्वरूप कुमार (जेसी-754829एफ), 01 जनवरी 2012

सूबेदार से सूबेदार मेजर एसकेटी के रैंक में

सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-760143डब्ल्यू), 04 जनवरी 2012/  
01 जनवरी 2012 \*

सूबेदार राम असरेय (जेसी-760142एन), 12 जनवरी 2012/01 जनवरी  
2012 \*

सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-760572एक्स), 06 जनवरी 2012/  
01 जनवरी 2012 \*

सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-760573ए), 12 जनवरी 2012/01 जनवरी  
2012 \*

सूबेदार हरपाल सिंह पुंदीर (जेसी-760574एच), 12 जनवरी 2012/  
01 जनवरी 2012 \*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

सूबेदार बिजय पाल सिंह (जेसी-153337वाई), 01 फरवरी 1996

सूबेदार से सूबेदार मेजर आर्टिजन मेटॉलर्जी के रैंक में

सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-759269के), 03 जनवरी 2012/  
01 जनवरी 2012 \*

सूबेदार से सूबेदार मेजर अर्मामेन्ट टेक (एएफवी/एडी) के रैंक में

सूबेदार मदन मोहन मंडल (जेसी-758492एफ), 10 जनवरी 2012/  
01 जनवरी 2012 \*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर एवीएन टेक अर्वेनेक्स के रैंक में

सूबेदार भुवनेश भूषण (जेसी-755392एल), 11 जनवरी 2012/  
01 जनवरी 2012 \*

सूबेदार से सूबेदार मेजर पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में

सूबेदार सोहन लाल गुजर (जेसी-759268एफ), 24 जनवरी 2012/  
01 जनवरी 2012 \*

सूबेदार से सूबेदार मेजर सुपोर्ट स्टॉफ के रैंक में

सूबेदार सुख पाल सिंह (जेसी-759509डब्ल्यू), 08 जनवरी 2012/  
01 जनवरी 2012 \*

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

नन्द किशोर कश्मीरा  
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 156, दिनांक 29 मार्च 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल  
पदीन्ति करते हैं :-

## भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में

एस एन मूर्ति (15945), वैई(वै), 01 अप्रैल 2009

(इनका नाम एयर कॉमोडोर प्रवीन कुमार (15970), वैई(यां) के नीचे में आएगा)

पी अनेजा (15975), वैई(यां), 01 अप्रैल 2009

हेमन्त शर्मा (15941), वैई(वै), 01 जून 2009

के ए मुथाना (16372), उपा, 02 मार्च 2009

(इनका नाम एयर कॉमोडोर यू सिंह (16204) उपा के नीचे आएगा)

ए आई मेहता (16377), उपा, 02 मार्च 2009

एन यादव (16399), उपा, 02 मार्च 2009

पी एन प्रधान (16403), उपा, 02 मार्च 2009

एस डी नानोदकर (16555), उपा, 02 मार्च 2009

डी के वशिष्ठ (16565), उपा, 02 मार्च 2009

डी एस आहलुवालिया (16571), उपा, 02 मार्च 2009

एन जे एस ढिल्लों (16580), उपा, 02 मार्च 2009

आर सचदेवा (16582), उपा, 02 मार्च 2009

ए सुब्रामनियम (16592), उपा, 02 मार्च 2009

वी एस भारती (16611), उपा, 02 मार्च 2009

पी मल्लिक (16669), शिक्षा, 30 मार्च 2009

ए के सिंह

उप निदेशक

कार्मिक (अधिकारी)-2बी

## वायुसेना

सं. 157, दिनांक 30 मार्च 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

## भारतीय वायुसेना

फ्ला लेफ्टि से स्क्वॉ ली के मूल रैंक पर

पी के शाह (28242), एस भारद्वाज (28228), जे श्रीनिवास (28239), पी घोष (28240), डी सेन (28241), डी एम सिंह (28229), के हरि प्रसाद (28245), डी एस दास (28246), पी एन कृष्णकुमार (28244), जे बी दाश (28230), एम चन्द्रा (28234), डी सिंह (28235),

जी कपिल (28237), सी सान्याल (28238), डी के चौबे (28236), ए कक्कड़ (28231), वी वी शर्की (28243), वी चौधरी (28227), एस के एच शर्मा (28226), एम एम पुरुषोत्तमन (28225), के एच नागराजन (28233), पी के सिंह (28232)

--18 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

## संभारिकी शाखा

एम जी स्टीफन (28248), पी कुमार (28252), बृजेश कुमार (28247), वी के वर्मा (28249), एस कुमार (28250), जे के पात्रा (28251)

--18 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

## लेखा शाखा

एस गुप्ता (28256), एम कुमारन राजा (28254), सी बिजू कुमार (28257), वी एन सतीशन (28253), के रामाकृष्णन (28255), एस एस श्रीधर (28258)

--18 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

## मेट शाखा

बी एस प्रशांत (28260), एन एस अप्पैया (27936), एस सिंह (28259), एम के चन्द्रगिरी (27935)

--18 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

## प्रशासन शाखा

प्रेस निर्मला (28279), आर सैनी (28278), पी वी धनश्री (28285), एन कौर (28275), एस भारती (28276), वी सौम्या (28270), एस कौर (28271), पी सुगन्या कामात्ची (28272), टी मुकिला (28277), वी डी कुलकर्णी (28283), एल शोभना नायर (28282), एम अरोड़ा (28280), एस तत्ववादी (28269), ए बिष्ट (28268), एस चौधरी (28267), जे गौतम (28266), पी मिश्रा (28265), एन सुहाग (28264), ए त्रिपाठी (28274), एस शर्मा (28273)

--18 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

## संभारिकी शाखा

भावना मित्तल (28286), ए श्रीवास्तव (28287), एस क्लेवेंटाइन (28288), पी एस धूमल (28290)

--18 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

## लेखा शाखा

एल मिश्रा (28291)

--18 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

## शिक्षा शाखा

पी जोशी (28292)

--18 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

मेट शाखा  
आर पी पाटिल (27937)  
--18 दिसम्बर 2010 से प्रभावी  
प्रशासन शाखा  
ए डे चौधरी (28294)  
--17 जनवरी 2011 से प्रभावी  
अल्प सेवा कमीशन  
प्रशासन शाखा  
अनुदीप्ति उपाध्याय (28281)  
--30 सितम्बर 2011 से प्रभावी  
फ्लाइंग अफसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के मूल रैंक पर  
स्थायी कमीशन  
एई (एल) शाखा  
अनिल शर्मा (29623)

--27 जून 2008 से प्रभावी

तरुण खरे  
विंग कमांडर  
संयुक्त निदेशक  
कार्मिक अफसर-3(डी)

-----

सेना शाखा

सं. 158, दिनांक 30 मार्च 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 से सेना चिकित्सा कोर से अल्कालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना आनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

अंकुश गुप्ता (एमएस-15846वाई)(एमआर-09230पी), एएमसी, 16 जुलाई 2008--वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 16 जुलाई 2005 से हो जाएगी। इसमें मास्टर ऑफ मेडीसन (सामान्य मेडीसन) 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 जनवरी 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]

घनश्याम स्वर्गायशि (एमएस-15751वाई)(एमआर-09229ए), एएमसी, 25 अप्रैल 2008--वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता

25 अक्टूबर 2004 से हो जाएगी [इसमें 42 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता [ मास्टर ऑफ सजरी (सामान्य शल्य) के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता एवं अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने (36+06=42)] भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 01 मई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]

यश पाण्डे  
ब्रिगे

उप महानिदेशक  
स से चिसे (मा सं)

-----  
वित्त प्रभाग

सं. 159, दिनांक 2 अप्रैल 2012--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में अनुभाग अधिकारी, मोहिनी रायसिंघानी की अधिवर्षिता की आयु होने पर उन्हें दिनांक 29.02.2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

रवि कत्याल  
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

-----  
सेना शाखा

सं. 160, दिनांक 2 अप्रैल 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवा निवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आईसी-47031) कर्नल अरुण प्रताप सिंह रजुरा, एसएम, इन्फैन्ट्री, 04 नवम्बर 2010 (अप)

(आईसी-38439) कर्नल समीर बिसारिया, इन्फैन्ट्री, 20 नवम्बर 2010 (अप)

(आईसी-48987) कर्नल बलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 16 अक्टूबर 2010 (अप)

(आईसी-39468) कर्नल हरजीत सिंह भगत, इन्फैन्ट्री, 21 सितम्बर 2011 (पूर्वा)

(आईसी-40880) कर्नल राजेश दीक्षित, सिग्नल्स, 30 अक्टूबर 2011 (अप)

(आईसी-50078) कर्नल वी सहगल, आर्टी, 16 जुलाई 2011 (अप)

(आईसी-49904) कर्नल राजीव खुल्लर, इन्फैन्ट्री, 19 अगस्त 2011 (अप)

(आईसी-49310) कर्नल संजय खन्ना, इन्फैन्ट्री, 30 जुलाई 2011 (अप)

(आईसी-49457) कर्नल नितिन रामाकृष्णा खाण्डेकर, इन्फैन्ट्री, 17 जनवरी 2011 (अप)

(आईसी-48108) कर्नल पी राजगोपालन, इन्फैन्ट्री, 04 जनवरी 2011 (अप)

(आईसी-49964) कर्नल राजेश कासवान, इन्फैन्ट्री, 16 जुलाई 2011 (अप)

(आईसी-47597) कर्नल संदीप सिंह, इन्फैन्ट्री, 26 मई 2011 (अप)

(आईसी-50037) कर्नल संकेत पाण्डे, इन्फैन्ट्री, 22 जनवरी 2011 (अप)

वन्दना दुबे  
उप निदेशक  
एमएसपीआर

#### स्थल सेना शाखा

सं. 161, दिनांक 3 अप्रैल 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 सितम्बर 2011 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

(आईसी-34797) कर्नल अनुप सिन्हा, आर्टी

(आईसी-35181) कर्नल सुशेन चक्रवर्ती, आर्टी

(आईसी-35193) कर्नल (टीएस) जगदीश चन्द्र काकाती, आर्टी

(आईसी-35200) कर्नल (टीएस) खुलेम सोरोजीत सिंह, आईएनएफ

(आईसी-35215) कर्नल सोहन सिंह धनोआ, आईएनएफ

(आईसी-35560) कर्नल ज्योतिर्मोय घोषाल, आईएनएफ

(आईसी-35574) कर्नल परवीन चन्द काटोच, आर्टी

(आईसी-35588) कर्नल (टीएस) राजेश चन्द्र सकलानी, मेक आईएनएफ

(आईसी-35624) कर्नल सुनील कुमार बहल, आर्टी

(आईसी-35918) कर्नल (टीएस) अरविन्द भागरा, एसी

(आईसी-37601) कर्नल मानिक वैद, आर्टी

(आईसी-37622) कर्नल (टीएस), अंशुया प्रसाद पंत, आईएनएफ

(आईसी-37664) कर्नल (टीएस) विजय कुमार, एसी

(आईसी-37724) कर्नल (टीएस) प्रदीप कुमार सिंह, आर्टी

(आईसी-37729) कर्नल बी हरि हरन, एओसी

(आईसी-37803) कर्नल (टीएस) रमेश मूर्ति, आईएनएफ

(आईसी-37827) कर्नल (टीएस) सुखबीर सिंह फोगट, आईएनटी कॉर्प्स

(आईसी-37828) कर्नल श्री ओम सिंह, आईएनएफ

(आईसी-38296) कर्नल विनोद कुमार शर्मा, आईएनएफ

(आईसी-38455) कर्नल (टीएस) गौतम मुखर्जी, आर्टी

(आईसी-38516) कर्नल सुभाष वसंत चौधरी, आईएनएफ

(आईसी-38606) कर्नल रजत रस्तोगी, इंजीनियर्स

(आईसी-38807) कर्नल (टीएस) नीरज कुमार वर्मा, आईएनएफ

(आईसी-38867) कर्नल (टीएस) अश्वनी कुमार वोहरा, आर्टी

(आईसी-39397) कर्नल (टीएस) रामबाबु पलेती, एएससी

(आईसी-39399) कर्नल हरिसिमरन सिंह संधु, ईसी

(आईसी-39424) कर्नल (टीएस) कमल कुमार, ईसी

(आईसी-40297) कर्नल धीनेश सिंह चौहान, ईएमई

(आईसी-41053) कर्नल (टीएस) जगदीश प्रसाद शर्मा, सिग्नल्स

(आईसी-41918) कर्नल (टीएस), कानाकील रवि, सिग्नल्स

(आईसी-42326) कर्नल (टीएस) अवतार सिंह, आईएनएफ

(आईसी-42486) कर्नल (टीएस) भग सिंह, आईएनएफ

(आईसी-42705) कर्नल (टीएस) रमेन्द्र माथुर, इंजीनियर्स

(आईसी-43114) कर्नल (टीएस) ज्ञान सिंह गुरुंग, एसी

(एसएल-03679) कर्नल रेघु कुमारा पिल्लई के एन, ईएमई

(एसएल-03826) ले कर्नल प्रफुल्ल कुमार पाल, ईएमई

(एसएल-03874) ले कर्नल कुलवंत सिंह, इंजीनियर्स

(एसएल-03980) ले कर्नल मुरुगेशन एस, सिग्नल्स

(एसएल-04235) ले कर्नल एम फ्रांसिस जेवियर, क्यू एम,

जयन्त चक्रवर्ती

उप निदेशक

एमएस-7ए

एमएस सेवानिवृत्ति

#### थल सेना शाखा

सं. 162, दिनांक 3 अप्रैल 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

#### सेना चिकित्सा कोर

(एमआर-04301एफ) मेजर जनरल एम एन श्रीराम, पीसी, 31 जुलाई 2011



(एमआर-04632एच) ब्रिगे एस एन मोहंती, पीसी, 30 जून 2011  
 (एमआर-04419एच) ब्रिगे कैलाश चंद, पीसी, 31 अक्टूबर 2011  
 (एमआर-03873डब्ल्यू) कर्नल एम एस बिश्नोई पीसी, 30 अप्रैल 2011  
 (एमआर-04648एन) कर्नल सुरेंद्र कुमार, पीसी, 30 जून 2011  
 (एमआर-04539एफ) कर्नल एन वी सुब्बाराव, पीसी, 30 जून 2011  
 (एनटीआर-16510एल) कर्नल प्रवीण कुमार, पीसी, 31 जुलाई 2011  
 (एनटीआर-16441ए) कर्नल एम सी बिष्ट, पीसी, 31 जुलाई 2011  
 (एनटीआर-16543डब्ल्यू) कर्नल ओम प्रकाश, पीसी, 28 फरवरी 2011  
 (एनटीआर-16490एच) कर्नल कृष्ण चंद्र, पीसी, 31 मई 2011  
 (एम आर-04335पी) ब्रिगे विरेंद्र भटनागर, पीसी, 31 अगस्त 2011  
 (एमआर-04128एच) ब्रिगे के के शर्मा, पीसी, 31 अक्टूबर 2011  
 (एमआर-05851डब्ल्यू) कर्नल के एन त्रिपाठी, पीसी, 31 जुलाई 2011  
 (एमआर-04536एन) कर्नल वी के अरोड़ा, पीसी, 31 अगस्त 2011  
 (एमआर-05768वाई) कर्नल ए अस्थाना, पीसी, 31 अगस्त 2011  
 (एमआर-03473के) कर्नल ए गणपथी, पीसी, 30 सितम्बर 2011  
 (एमआर-05094एम) कर्नल सी एस पंडा, पीसी, 30 सितम्बर 2011  
 (एमआर-04325एल) कर्नल ए के दास, पीसी, 31 जनवरी 2011  
 (एमआर-03709एन) कर्नल जयंत दत्ता, पीसी, 31 जुलाई 2011

(एमआर-04846वाई) कर्नल (टीएस) गोपराज चक्रवर्ती, पीसी, 31 जुलाई 2011  
 (एमआर-04652डब्ल्यू) कर्नल (टीएस) प्रदीप सेठी, पीसी, 30 सितम्बर 2011

यश पाण्डे  
 ब्रिगे  
 उप महानिदेशक

-----  
 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 163, दिनांक 4 अप्रैल 2012--सेवानिवृत्ति की आयु 9 जनवरी, 2010 को प्राप्त होने और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या डीओपी/05/50275/एम/01/3053/डी(आरएण्डडी) दिनांक 30 सितम्बर, 2009 के तहत दो वर्ष की सेवा की बढ़ोतरी स्वीकृति की समाप्ति पर आर शंकर, वैज्ञानिक 'जी', निदेशक, सीवी एण्ड ई, डीआरडीओ मुख्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 31 जनवरी, 2012 (अपराह) को सेवानिवृत्त हुए तथा दिनांक 01 फरवरी, 2012 (पूर्वाह) से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित किये गये।

सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर श्री हरकेश सिंह, वैज्ञानिक 'एफ', सेनाध्यक्ष के वैज्ञानिक सलाहकार (एसए टू सीओएस), डीआरडीओ मुख्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 31 जनवरी, 2012 (अपराह) को सेवानिवृत्त हुए तथा दिनांक 01 फरवरी, 2012 (पूर्वाह) से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित किये गये।

प्रदीप कुमार  
 उप निदेशक (कार्मिक)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th May 2012

## ARMY BRANCH

## ADJUTANT GENERAL'S BRANCH

No. 147, dated 23rd March 2012—The President is pleased to appoint Dileep Singh Gaur, Civilian Assistant Security Officer as Civilian Security Officer (Group A Gazetted) in PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/-, with effect from 02 January 2012 until further orders.

ANGNA RAM  
Under Secy.

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 148, dated 23rd March 2012—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officers:-

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Sub Lt General

(IC-30392) Maj Gen RP Dastane, VSM, AVSM, Arty (GC), 14 Nov 2010

(IC-30482) Maj Gen Vinod Bhatia, SM, AVSM, Para, 14 Nov 2010

(IC-27942) Maj Gen NB Singh, VSM, AVSM, EME, 25 Nov 2010

(IC-30118) Maj Gen A Mukherjee, AVSM, Arty, 01 Dec 2010

(IC-30503) Maj Gen JP Nehra, AVSM, Madras, 10 Dec 2010

(IC-30687) Maj Gen Sanjiv Langer, AVSM, 69AR, 15 Dec 2010

(IC-30708) Maj Gen AK Choudhary, AVSM, SM, VSM, Mahar, 24 Dec 2010

To be Subs Brig

(IC-38491) Col B Pathak, Arty, 26 Feb 2010 with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-39418) Col AK Tyagi, AEC, 01 Jun 2010 with seniority from 02 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-39603) Col JS Pathania, AOC, 01 Jan 2010 with seniority from 13 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-39656) Col D Sharma, VSM, 4GR, 08 Jan 2010 with seniority from 15 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-39696) Col JT Chacko, AOC, 30 Mar 2010 with seniority from 16 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-39709) Col SS Saluja, AOC, 01 Jan 2010 with seniority from 17 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-39807) Col BA Kumar, AEC, 01 Dec 2010 with seniority from 18 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-37816) Col RPS Rai, AOC, 01 Jan 2010 with seniority from 19 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-37838) Col N Kumar, AOC, 01 Jan 2010 with seniority from 19 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-39871) Col SK Upadhyaya, SM, Garh Ref, 08 Jan 2010 with seniority from 21 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-39872) Col Anil Kapoor, VSM, EME, 29 Oct 2010 with seniority from 21 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-39881) Col Ram Somtia, AOC, 01 Feb 2010 with seniority from 21 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-40013) Col AK Thakur, Arty, 26 Feb 2010 with seniority from 27 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-40096) Col MM Hussain, SM, Arty, 20 Aug 2009 with seniority from 30 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-40097) Col Rajan Kochhar, AOC, 16 Jul 2010 with seniority from 30 Jun 2008 without effect on pay and pension.

(IC-38231) Col Sunil Chandra, AEC, 01 Aug 2009 with seniority from 01 Jan 2008 without effect on pay and pension.

(IC-37569) Col MP Singh, Arty, 11 Sep 2009 with seniority from 03 Jan 2008 without effect on pay and pension.

(IC-38643) Col RS Salaria, Arty, 01 Apr 2010 with seniority from 06 Jan 2008 without effect on pay and pension.

(IC-38696) Col NP Singh, ARMD, 01 Nov 2009 with seniority from 10 Jan 2008 without effect on pay and pension.

(IC-38750) Col MM Naravane, Sikh LI, 19 Jul 2010 with seniority from 13 Jan 2008 without effect on pay and pension.

(IC-38768) Col Rustam Patnaik, SM, VSM, Mahar, 28 Jun 2010 with seniority from 15 Jan 2008 without effect on pay and pension.

(IC-38821) Col JS Kumar, VSM, AOC, 01 Aug 2009 with seniority from 16 Jan 2008 without effect on pay and pension.

(IC-38832) Col SN Bhaduri, Arty, 01 Jul 2009 with seniority from 17 Jan 2008 without effect on pay and pension.

(IC-37685) Col Harjinder Jit Singh, AOC, 10 Aug 2009 with seniority from 20 Jan 2008 without effect on pay and pension.

(IC-39121) Col VP Shahi, AOC, 09 Sep 2009 with seniority from 25 Jan 2008 without effect on pay and pension.

RB ASTHANA  
Dir/MS(X)

## ARMY BRANCH

No. 149, dated 26th March 2012—The President is pleased to make the promotion of under mentioned AMC officers with effect from the date as indicated against their names:-

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Wg Cdr To GP Capt (Time Scale)

(MR-05517P) Wg Cdr A Mehta, 01 Dec 2011

Surg Cdr to be Surg Capt (& equivalent)

A Bhardwaj (MR-06451W), 31 Mar 2011, with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Jan 2011.

D Raghavan (MR-06033F), 04 Mar 2011, with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Jan 2011.

M S Honwad (MR-06037X), 08 Mar 2011, with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Jan 2011.

R Shankaran (MR-06039H), 04 Mar 2011, with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Jan 2011.

P A Deshmukh (MR-06043L), 04 Mar 2011, with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Jan 2011.

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

No. 150, dated 26th March 2012—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date (s) mentioned against the each name:-

## REGULAR ARMY

## (PERMANENT COMMISSION)

Lt Col (Select) to Col

Col Mala Singh (NR-17332A), 16 Aug 2010

Col Padmini Mohan (NR-16940P), 01 May 2010

LtCol (TS) to Lt Col (Select)

Lt Col Mala Singh (NR-17332A), 28 Apr 2007

Lt Col Padmini Mohan (NR-16940P) 14 Sep 2006

Major to Lt Col (TS)

Lt Col Shashikala (NR-16847N), 29 Jul 1999

Capt to Maj

Maj Shashikala (NR-16847N), 29 Jul 1992 (DOC 16 Jul 1979, 13 days of absence, 17 Dec 1987 to 29 Dec 1987, regularised with EOL without Pay & allowances).

J K GREWAL  
Maj Gen  
Addl DGMNS

## ARMY BRANCH

No. 151, dated 27th March 2012—The President is pleased to make the promotion of the under mentioned AMC officer with effect from the date mentioned against him/her:-

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Maj

Ghanashyam Swargiary (MS-15751Y), (MR-09229A), AMC, 25 Oct 2008, (MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jul 2010 in so for as it relates to the officer is hereby cancelled).

Ankush Gupta (MS-15846Y), (MR-09230P), AMC, 16 Jul 2009, (MoD Notification published in Gazette of India dated 25 Dec 2010 in so for as it relates to the officer is hereby cancelled).

Jagriti Verma (MR-09152H), AMC, 27 Dec 2009

To be Capt

Pulkit Tushar (MR-09024L), 10 Feb 2011

Parijat Das (MR-09002M), 10 Feb 2011

Aman Awasthi (MR-08930W), 09 Aug 2010

Parminder Singh Roprai (MR-08872X), 11 Feb 2010

Abhishek Mallick (MR-08871P), 11 Feb 2010

YASH PANDE  
Brig.  
Dy DGAFMS (HR)

## ARMY BRANCH

No. 152, dated 27 March 2012—The President is pleased to make the following promotion:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

(IC-66378) Satish Kumar Gautam, AC

(IC-66379) Shailendra Singh Rathore, AC

(IC-66381) Washim Ahmed, Arty

(IC-66382) Pramod M, Inf	(IC-66432) Karani Singh Bhati, Arty
(IC-66383) Pankaj Sharma, Inf	(IC-66433) Rajneesh Joshi, Inf
(IC-66385) Pushkar Singh Sirohi, ASC	(IC-66434) T. Asuthong, Inf
(IC-66386) Jugmal Singh Vaghela, Inf	(IC-66435) Vivek Yadav, AC
(IC-66387) Karunakar Dimri, Inf	(IC-66437) Joseph Christy Tarfil J, Inf
(IC-66388) Hemant Yadav, Mech Inf	(IC-66440) Jinu Thankappan, Inf
(IC-66389) Manish Jalal, Inf	(IC-66441) Sumit, Inf
(IC-66391) Amit Kumar Chhetri, Inf	(IC-66442) Yudhishter Rathore, Inf
(IC-66395) A Srinivasulu, Inf	(IC-66447) Vinod Nischal, Arty
(IC-66396) S Abilash Nair, Inf	(IC-66448) Samiddha Banerjee, Inf
(IC-66397) Miriyala Naveen, AOC	(IC-66449) Tanuj Singh, Arty
(IC-66398) Kashid Amit Madhukar, Arty	(IC-66450) Deepak Kumar, AC
(IC-66399) Rakesh Kumar Sharma, Inf	(IC-66451) Siddharth Sharma, ASC
(IC-66400) Shankar Ram Menon P, Arty	(IC-66452) Pradeep Sehrawat, Mech. Inf
(IC-66401) Kulvir Singh, Arty	(IC-66453) Rajpal Singh, Inf
(IC-66402) Rajeev Kumar, Inf	(IC-66455) Saurabh Bhagwat, Inf
(IC-66403) L Vincent Patton, Inf	(IC-66456) Saibal Roy Chaudhary, Arty
(IC-66405) Sunny Gill, ASC	(IC-66457) Nagarkoti Narendra Singh, Inf
(IC-66409) Deshmukh Jaydip Jagannath, Inf	(IC-66458) Annappa C Karjagi, Arty
(IC-66410) Gurav Bhatnagar, Inf	(IC-66459) Balbir Singh, Mech Inf
(IC-66411) Suraj Abraham, Inf	(IC-66461) Jai Negi, Inf
(IC-66412) Mohan Dyandeo Shinde, Arty	(IC-66462) Manmath Deora, Inf
(IC-66413) Rohit Sharma, Inf	(IC-66466) Ajay Singh, Mech, Inf
(IC-66415) Arvind Singh, Inf	(IC-66469) Anand Kumar, ASC
(IC-66416) Shinde Pravin Popat, Inf	(IC-66470) Hitendra Pradhan, AOC
(IC-66417) Ajay Dahiya, Inf	(IC-66471) Utsav Singh, Inf
(IC-66418) Sunil Kumar, Inf	(IC-66472) Vikas Singh, Arty
(IC-66419) Niranjana, Arty	(IC-66474) Abhishek Pal, Inf
(IC-66421) Anil Kaushik, AC	(IC-66475) Y Sharat, Arty
(IC-66422) Jay Gagan Manhas, AOC	(IC-66477) Gaurav Kumar, Inf
(IC-66424) Pandit Chinmay Maheshchandra, Arty	(IC-66478) Devendu Ghoshal, Arty
(IC-66425) Pradeep Nautiyal, Arty	(IC-66480) Vinod Kumar, AOC
(IC-66426) Jagjit Sandhu, Inf	(IC-66481) Chiplunkar Ameya R, Inf
(IC-66427) Salam Premjit Singh, Arty	(IC-66482) Ranjeet Singh Bhadouriya, Inf
(IC-66429) Ashok Kumar Tiwari, Inf	(IC-66483) Nitin Bhatia, Inf
(IC-66430) Himanshu Issar, AC	(IC-66484) G Rakul, Arty
(IC-66431) Hartaj Singh, Inf	

## SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Capt to be Maj

(SS-41220) Amarjeet Singh, Mech, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41223) Pratik Prabhakar, Arty, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41224) Amit Aukta, Inf, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41225) Jasbir Singh, AOC, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41240) Ashish Agashe, AAD, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41242) Dharmendra Bhatt, Inf, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41252) Bhanu Pratap Singh Bhalwal, Inf, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41262) P Dallienmawi Gangte, Inf, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41265) Rajesh Prakash Solanki, Inf, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41274) Ram Naresh Singh, ASC, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41287) Abhinav Handa, ASC, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41291) Deepak Shahi, Arty, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41293) Digvijay Annasaheb Deshmukh, Arty, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41300) Bagayatkar Amol Sanjiv, Mech, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41304) Pushpender Pal Singh, AC, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41305) Debasish Mishra, Arty, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41314) Aheibam Basanta Singh, Arty, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41325) Rakesh Kumar, ASC, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41332) Brijesh Singh, Inf, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41336) Sandeep Yadav, Arty, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41337) Atma Prakash, AOC, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41339) Ashish Tripathi, AAD, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41340) Mahajan Anup Amol, Arty, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41349) Gaurav Sood, AC, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41352) Pradyut Ghosal, Arty, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41364) Vaibhav Singh, AC, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41365) Tushar Chauhan, Inf, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-41366) AD Sharma, AOC, 19 Mar 2005, SSC-79 (NT), 19 Oct 2005, 19 Oct 2011

(SS-42654) Varun Parmar, AAD, 22 Sep 2005, SSC-27 (T), 22 Oct 2005, 22 Oct 2011

## PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

(IC-66651) Arjun Singh Chauhan, Inf, 17 Apr 2008

(IC-72833) Sharab Babar, Mech Inf, 18 Oct 2008

(IC-72977) Sandeep Singh, Sigs, 18 Oct 2006

(IC-72978) Santosh Kumar, EME, 18 Oct 2006

(IC-72979) Pathan Yunus Khan Sher Khan, EME, 18 Oct 2006

(IC-72980) Nitin Sharma, EME, 18 Oct 2006

(IC-72981) Abhimanyu Mahajan, EME, 18 Oct 2006

(IC-72982) Dinesh Kumar Khatri, EME, 18 Oct 2006

(IC-72983) Malkeet Singh Lavana, Sigs, 18 Oct 2006

(IC-72984) Sukhdev Singh, EME, 18 Oct 2006

(IC-72986) Amit Kumar, EME, 18 Oct 2006

(IC-72990) Arundeeep Gupta, Sigs, 18 Oct 2006

(IC-72992) Rahul Chaman Koul, Engrs, 18 Oct 2006

(IC-72993) Biswajit Sahu, Engrs, 18 Oct 2006

(IC-72994) Prabhat Saraswat, EME, 18 Oct 2006

(IC-72997) Sathe Subodh Vilas, EME, 18 Oct 2006

(IC-72998) Kshitij Kumar, Sigs, 18 Oct 2006

## SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)

Lt to be Capt

(SS-44495) Komal S, EME, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44497) Kale Meenakshi Rajeshwar, Sigs, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44500) Sanchita Jha, Engrs, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44501) Vaneeta Padhi, Sigs, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44502) Sakshi Cheema, EME, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44519) Jasmine Mishra, EME, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44528) Aswathy Ganapath, EME, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44540) Swati Rawat, EME, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44544) Rajinder Kaur, EME, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44553) Geeta Sharma, Sigs, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44557) Teena Singh, EME, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44559) Shikha Singh, Sigs, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44562) Shruti Srivastava, Sigs, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44567) Neha Singh Chauhan, Sigs, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

(SS-44569) Anshu Upadhyay, Engrs, 22 Mar 2009, SSCW-05 (T), 22 Apr 2009, 22 Apr 2011

PRABHAT ROSS  
Dy Dir MS-8C

#### ARMY BRANCH

No. 153, dated 28th March 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### DEFENCE SECURITY CORPS

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Ram Ishwar Ray (JC-327088X), 01 Nov 2011

Sub Ram Swarup (JC-236827L), 01 Dec 2011

Sub Hira Lal Patel (JC-840705W), 01 Jan 2012

To be Subs Sub Maj Clk (SD)

Sub/Clk M Kariya Perumal (JC-841485K), 01 Dec 2011

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Krishna Pada Ghosh (JC-297851X), 01 Jun 2011

Nb Sub Darwan Singh (JC-539247A), 01 Sep 2011

Nb Sub Muluk Singh (JC-412264F), 01 Dec 2011

Nb Sub Ganga Ram (JC-201847A), 01 Dec 2011

Nb Sub Om Parkash (JC-592360W), 01 Dec 2011

Nb Sub Sonam Murup (JC-220838N), 01 Dec 2011

Nb Sub Lav Kumar (JC-558561H), 01 Dec 2011

Nb Sub Kehar Singh (JC-508354A), 01 Dec 2011

Nb Sub Randhir Singh (JC-498743K), 01 Dec 2011

Nb Sub Farooq Ahmed, SM (JC-592631H), 01 Dec 2011

Nb Sub Narayan Singh Bisht (JC-569027L), 01 Dec 2011

Nb Sub Suraj Bhan Janghu (JC-403069H), 01 Dec 2011

Nb Sub Baldev Singh (JC-518320A), 01 Jan 2012

To be Subs Sub Clk (SD)

Nb Sub/Clk Tarun Kumar Tripathi (JC-842133Y), 01 Dec 2011

To be Nb Sub (GD)

Hav Daya Nath Yadav (No. 14342886Y now JC-842989K), 09 Sep 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Devasya PP (No. 10289726W now JC-843027M), 09 Dec 2011\*\*

Hav Prem Singh (No. 1265034F now JC-843030M), 28 Nov 2011\*\*

\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Mohd Akhtar (No. 2866985Y now JC-843036N), 22 Nov 2011\*\*\*

Hav Dalbir Singh (No. 4054953P now JC-843037W), 15 Dec 2011\*\*\*

Hav Chet Ram (No. 6467985W now JC-843040W), 01 Dec 2011\*\*\*

Hav Nawal Kishor (No. 10389065W now JC-843041Y), 28 Nov 2011\*\*\*

Hav Tik Bahadur Gurung (No. 5242027X now JC-843042F), 10 Dec 2011\*\*\*

Hav Surender (No. 10135138A now JC-843049L), 18 Nov 2011\*\*\*

Hav Swaran Singh (No. 1553740P now JC-843050A), 01 Dec 2011\*\*\*

\*\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Monu Ram Singh (No. 10478984A now JC-843054W),  
16 Dec 2011\*\*\*\*

Hav Simar Singh (No. 13738044N now JC-843059P),  
07 Dec 2011\*\*\*\*

Hav Shyam Narayan Singh (No. 4257185N now JC-  
843061M), 07 Dec 2011\*\*\*\*

Hav Ramphal Singh (No. 3980222Y now JC-843062P),  
12 Dec 2011\*\*\*\*

\*\*\*\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Alias Khan (No. 8824229W now JC-843067N),  
01 Dec 2011\*\*\*\*\*

Hav Charan Singh (No. 14355964K now JC-843068W),  
01 Dec 2011\*\*\*\*\*

Hav T Ashok Kumar (No. 10328272M now JC-843069Y),  
01 Dec 2011\*\*\*\*\*

Hav A Bhaskaran (No. 10328190K now JC-843070N),  
01 Dec 2011\*\*\*\*\*

Hav Soman P (No. 10289666M now JC-843071W),  
01 Dec 2011\*\*\*\*\*

Hav Mukundan KV (No. 10289868N now JC-843075M),  
01 Dec 2011\*\*\*\*\*

Hav KT Narayanan Kutty (No. 10328189P now JC-  
843076P), 01 Dec 2011\*\*\*\*\*

Hav Devan C (No. 10328169F now JC-843077X),  
06 Jan 2012\*\*\*\*\*

Hav A Simion Raju (No. 10451500L now JC-843080X),  
01 Dec 2011\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec  
2011 without effect on pay and allowances)

#### ARMY POSTAL SERVICE CORPS

To be Sub Maj/Clk (SD)

Sub/Clk (SD) Kanwal Singh (JC-834094W), 01 Dec 2011

To be Sub/Clk (SD)

Nb Sub/Clk (SD) Rajendra Singh (JC-834393P), 11 Nov  
2011\*

Nb Sub/Clk (SD) Kirtan Singh (JC-834396H), 01 Nov 2011

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2011  
without effect on pay & allowances)

PRADEEP KUMAR  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 154, dated 28th March 2012—The President is pleased  
to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Sub

Nb Sub Brij Lal Thakur (JC-803755K), 11 Oct 2011@

Nb Sub Kaizar Kamal Salauddin Azad (JC-803760P),  
12 Sep 2011@

@(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2011  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sunil Kumar Thakur (JC-803763H), 04 Oct 2011#

Nb Sub Balvinder Singh (JC-803764L), 01 Oct 2011#

#(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2011  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Veerpal (JC-803765N), 04 Nov 2011\$

Nb Sub Ranvir Singh (JC-803766W), 01 Nov 2011

Nb Sub Sohan Ram Legga (JC-803767Y), 01 Nov 2011

Nb Sub Virender Kumar (JC-803768F), 24 Dec 2011\$

Nb Sub Gajpal Singh (JC-803769K), 01 Nov 2011

Nb Sub Madan Singh (JC-803770Y), 01 Nov 2011

Nb Sub/Clk Puttu Lal Shakya (JC-804010H), 01 Nov 2011

\$(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2011  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surendra Jha (JC-803771F), 01 Dec 2011

Nb Sub Yogendra Prasad (JC-803773M), 02 Dec 2011\*

Nb Sub Suresh Kumar (JC-803774P), 01 Dec 2011

Nb Sub Kamlesh Kumar Singh (JC-803775X), 01 Dec 2011

Nb Sub Ramesh Singh Gusain (JC-803777H), 01 Dec 2011

Nb Sub Anil Borah (JC-803779N), 01 Dec 2011

Nb Sub Jai Krishen Tikoo (JC-803781L), 01 Dec 2011

Nb Sub Dinesh Kumar Sharma (JC-803782N), 01 Dec 2011

Nb Sub Shamsher Singh (JC-803783W), 01 Dec 2011

Nb Sub Brahma Nand Dwivedi (JC-803784Y), 01 Dec 2011

Nb Sub Shyam Bihari Ray (JC-803786K), 01 Dec 2011

Nb Sub Yogesh (JC-803787M), 01 Dec 2011

Nb Sub Himmat Singh (JC-803788P), 01 Dec 2011

Nb Sub Anup Kumar Roy (JC-803791P), 01 Dec 2011

Nb Sub Ram Prakash Shukla (JC-803792X), 01 Dec 2011

Nb Sub Samar Bahadur Singh (JC-803793A), 01 Dec 2011

- Nb Sub Vijay Kumar Sharma (JC-803794H), 01 Dec 2011
- Nb Sub Bhupinder Pal Singh (JC-803796N), 01 Dec 2011
- Nb Sub Bijender Singh (JC-803798Y), 02 Dec 2011\*
- Nb Sub Umed Singh (JC-803801N), 01 Dec 2011
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Pramod Chandra Pandey (JC-803803Y), 06 Jan 2012&
- Nb Sub Narayan Dakua (JC-803804F), 04 Jan 2012&
- Nb Sub A Mohan (JC-803805K), 01 Jan 2012
- Nb Sub/Clk Harendra Singh (JC-804012N), 01 Jan 2012
- Nb Sub/Clk Nandan Singh (JC-804064K), 01 Jan 2012
- Nb Sub/Clk Samaya Singh Gurjar (JC-804150P), 01 Jan 2012
- Nb Sub/Clk Meer Singh (JC-804189F), 01 Jan 2012
- &(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)
- To be Nb Sub
- Hav Prasenjit Kumar Ghosh (No. 9511233X now JC-804500W), 01 Aug 2011
- Hav Rakesh Kumar (No. 9511272W now JC-804523X), 01 Sep 2011
- Hav Abu M (No. 9511280P now JC-804526L), 19 Sep 2011@
- @(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay and allowances)
- Hav/Clk Ajajuddin (No. 9510171W now JC-804532Y), 22 Nov 2011\*
- Hav Sudhir Kumar Martand (No. 9511293M now JC-804533F), 15 Oct 2011\*
- Hav Rakesh Kumar (No. 9511296A now JC-804534K), 21 Oct 2011\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)
- Hav/Clk Kuldeep Singh (No. 9510172Y now JC-804535M), 01 Nov 2011
- Hav/Clk Sudama Yadav (No. 9510176P now JC-804536P), 01 Nov 2011
- Hav Anand Singh Jodha (No. 9511297H now JC-804537X), 01 Nov 2011
- Hav K Kulwant Singh (No. 9511300X now JC-804538A), 24 Nov 2011\$
- Hav Sunil Kumar P (No. 9511302H now JC-804539H), 01 Nov 2011
- Hav Ram Pal (No. 9510118L now JC-804540X), 01 Nov 2011
- Hav Kailash Chand (No. 9511316H now JC-804541A), 01 Nov 2011
- Hav Beer Pal Singh (No. 9511317L now JC-804542H), 01 Nov 2011
- \$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)
- Hav Birender Singh (No. 9511322W now JC-804543L), 01 Dec 2011
- Hav Vijaya Kumar B (No. 9511323Y now JC-804544N), 01 Dec 2011
- Hav Pradeep Kumar Chauhan (No. 9511324F now JC-804545W), 01 Dec 2011
- Hav Kailash Chandra Dhal (No. 9511325K now JC-804546Y), 01 Dec 2011
- Hav Kailash Chand (No. 9511328X now JC-804547F), 01 Dec 2011
- Hav Suresh Kumar Das (No. 9511330P now JC-804548K), 01 Dec 2011
- Hav Sri Ram Kishor (No. 9511331X now JC-804549M), 01 Dec 2011
- Hav Pavithran V (No. 9511332A now JC-804550F), 01 Dec 2011
- Hav Pala Ram Panwar (No. 9511333H now JC-804551K), 01 Dec 2011
- Hav Kaushal Kumar Singh (No. 9511334L now JC-804552M), 01 Dec 2011
- Hav Ram Prakash (No. 9511335N now JC-804553P), 01 Dec 2011
- Hav Anil Kumar Lenka (No. 9511336W now JC-804554X), 01 Dec 2011
- Hav Benny K P (No. 9511341F now JC-804555A), 01 Dec 2011
- Hav Karan Pal (No. 9511343M now JC-804556H), 01 Dec 2011
- Hav Sudhakaran Pillai K (No. 9511347H now JC-804557L), 01 Dec 2011
- Hav D Chandra Sekar (No. 9511348L now JC-804558N), 06 Dec 2011@
- Hav Sri Pratap Singh (No. 9511350H now JC-804559W), 01 Dec 2011
- Hav Sri Aditya Kumar Mishra (No. 9511353W now JC-804560L), 01 Dec 2011
- Hav Shankar Dutt (No. 9511354Y now JC-804561N), 01 Dec 2011
- Hav Chander Prakash Phuloria (No. 9511355F now JC-804562W), 01 Dec 2011



Hav Koravi Yallappa (No. 9511356K now JC-804563Y),  
01 Dec 2011

Hav Shalendra Singh Sisodia (No. 9511358P now JC-804564F), 01 Dec 2011

Hav Ayyub Ali (No. 9511361P now JC-804565K), 01 Dec 2011

Hav Yogendra Singh (No. 9511363A now JC-804566M),  
01 Dec 2011

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Radhe Shyam Sharma (No. 9510160K now JC-804567P), 01 Jan 2012

Hav/Clk Charles Varkey (No. 9510192M now JC-804568X),  
01 Jan 2012

Hav/Clk Pedagadi Sreenivasa Rao (No. 9510193P now JC-804569A), 01 Jan 2012

Hav/Clk Shah Alam (No. 9510194X now JC-804570P),  
01 Jan 2012

Hav Rajender Singh Hada (No. 9511364H now JC-804572A), 01 Jan 2012

Hav Baljit Ram (No. 9511369F now JC-804574L), 04 Jan 2012#

Hav Hitender Singh Rawat (No. 9511370W now JC-804575N), 03 Jan 2012#

Hav Vikram Mahashabde (No. 9511372F now JC-804576W), 03 Jan 2012#

Hav Manoj Kumar Mishra (No. 9511375P now JC-804577Y), 01 Jan 2012

Hav Rajeev Kumar Pandey (No. 9511378H now JC-804579K), 01 Jan 2012

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

PREM PARKASH  
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR  
BRANCH

No. 155, dated 29th March 2012—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions :—

HMT to be Nb Sub Master Tech Comn

Dipak Das (No. 14617536A now JC-765529A), 13 Dec 2010/03 Oct 2010\*

HMT to be Nb Sub Master Tech GCE

Papinder Singh (No. 14628337M now JC-766704W),  
01 Jan 2012

Satya Prakash Yadav (No. 14630033N now JC-766706F),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

HMT to be Nb Sub Master Tech Rdr

Hare Krishna (No. 14601278F now JC-766707K), 02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Nirmal Ekka (No. 14618160W now JC-766708M), 06 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Vegi Ram Krishna (No. 14619978X now JC-766709P),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Kamlesh Kumar (No. 14624880N now JC-766710K),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Yamali Sreenuvasu (No. 14625729P now JC-766711M),  
01 Jan 2012

Wani Jitendra Madhukar (No. 14626935L now JC-766713X),  
01 Jan 2012

Manoj Kumar Tiwari (No. 14626953N now JC-766714A),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

HMT to be Nb Sub Master Tech Gun

Neeraj Kumar (No. 14621611W now JC-766716L), 02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Attada Sreedhara Rao (No. 14621617X now JC-766717N),  
01 Jan 2012

Ajay Shankar Singh (No. 14621674Y now JC-766719Y),  
01 Jan 2012

Ramdeen Choudhary (No. 14621681P now JC-766720N),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

HMT to be Nb Sub Master Tech Elect

Avijit Parai (No. 14622639H now JC-766721W), 01 Jan 2012

Bhagwan Prasad Yadav (No. 14601710X now JC-766725M), 01 Jan 2012

Sanjeeva Kumar Singh (No. 14621323K now JC-766536H),  
01 Jan 2011

Ram Raj Kumar (No. 14622711N now JC-766722Y),  
01 Jan 2012

Vinod Kumar Yadav (No. 14625135A now JC-766723F),  
02 Jan 2011/01 Jan 2012\*

Asrudin (No. 14606668N now JC-766726P), 04 Jan 2012/  
01 Jan 2012\*

HMT to be Nb Sub Master Tech Networking

K Vijayan (No. 14620947K now JC-766773M), 02 Jan 2011/  
01 Jan 2011\*

Balvir Singh (No. 14611229M now JC-766774P), 01 Jan 2012

Pawar Shivaji Tukaram (No. 14617630K now JC-766775Y),  
01 Jan 2012

Pramod Kumar Yadav (No. 14621036A now JC-766779N),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Ajeet Singh (No. 14621651X now JC-766783W),  
03 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Manoj Kumar G (No. 14622767A now JC-766791P),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Amar Nath Sharma (No. 14622177F now JC-766786K),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Sukalu Ram (No. 14621981W now JC-766789X),  
01 Jan 2012

Purushottam Kumar (No. 14623722M now JC-766793A),  
01 Jan 2012

Ram Pravesh Yadav (No. 14624886P now JC-766795L),  
01 Jan 2012

Nishanth C K (No. 14625056L now JC-766796N),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Raj Kumar (No. 14616948P now JC-766797W),  
01 Jan 2012

Tyag Raj (No. 14618075N now JC-766798Y), 02 Jan 2012/  
01 Jan 2012\*

Sunil Kumar S (No. 14618575L now JC-766800L),  
01 Jan 2012

R Arumugam (No. 14618919Y now JC-766804F),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Brij Bhushan Singh Bisht (No. 14621959L now JC-  
766807P), 04 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Priya Ranjan Malakar (No. 14622471F now JC-766808X),  
01 Jan 2012

Manoj Kumar Yadav (No. 14623070Y now JC-766809A),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Rajani Kant Singha (No. 14623129N now JC-766810P),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Bal Kishan (No. 14624320F now JC-766811X),  
01 Jan 2012

Satish Chand (No. 14624469H now JC-766812A),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Shinde Chandrakant Vilas R (No. 14624541N now JC-  
766813H), 01 Jan 2012

Biru Pakshya Mohanty (No. 14622451N now JC-766816W),  
01 Jan 2012

Beenesh Kalliatt (No. 14622724L now JC-766818F),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Arjun Singh (No. 14622905W now JC-766821F),  
01 Jan 2012

K Neelakandan (No. 14619517N now JC-766823M),  
01 Jan 2012

Samarjit Das (No. 14620956L now JC-766825X),  
02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

\*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub Artsnmet

Lal Bahadur (No. 14613777H now JC-766341X),  
28 Dec 2011/01 Dec 2011\*

Hav to be Nb Sub Tech Comn

Om Prakash Mali (No. 14616119F now JC-766583A),  
01 Nov 2011

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Satbir Singh (No. 14590752F now JC-766727X),  
01 Jan 2012

Dinesh Singh (No. 14591464F now JC-766730X),  
01 Jan 2012

Jatin Chandra Borah (No. 14590439W now JC-766731A),  
01 Jan 2012

Rajender Singh (No. 14591258X now JC-766729H),  
01 Jan 2011

Hav to be Nb Sub Auto Tech Elect B Veh

Raj Kumar (No. 14590995M now JC-766832N), 06 Jan  
2012/01 Jan 2012\*

Ram Kishore (No. 14590406L now JC-766833W),  
06 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav to be Nb Sub Dtmn Tech

Harendra Ram (No. 14609897K now JC-766839X),  
04 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav to be Nb Sub Ptr & Dectr

Patel Mukesh Kumar Rati Lal (No. 14613602A now JC-  
766453X), 02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav to be Nb Sub Tech Rdr

Sunil Kumar (No. 14612884X now JC-766451M), 14 Oct  
2011/01 Oct 2011\*

Bandal Jagannath Hari (No. 14616075P now JC-766834Y),  
17 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav to be Nb Sub Welder

A Mallesh (No. 14654052X now JC-766746H),  
01 Jan 2012

Hav to be Nb Sub Armt Afv Ad

Santosh Kumar Das (No. 14593163W now JC-766837M),  
16 Jan 2012/01 Jan 2012\*

\*(Gtd ante dated seniority)

## To be Sub Maj Master Tech Gun

Sub Kasham Ali Mollaha (JC-755503X), 02 Aug 2011/  
01 Aug 2011\*

Sub Aravindakshan CT (JC-755495K), 08 Aug 2011/  
01 Aug 2011\*

Sub Chandra Mohan Singh (JC-755894N), 01 Oct 2011

Sub N Ravi (JC-756294X), 01 Oct 2011

## To be Sub Maj Clk (SD)

Sub Gangadhar (JC-753507P), 15 Aug 2011/01 May 2011\*

Sub Amrik Singh (JC-753591A), 03 Oct 2011/01 Oct 2011\*

Sub Bal Ram Singh (JC-753708N), 01 Dec 2011

Sub Aditya Ranjan Mahapatra (JC-753777K), 09 Jan 2012/  
01 Jan 2012\*

Sub Jaibir Singh Sirohi (JC-754110P), 10 Jan 2012/01 Jan  
2012\*

## To be Sub Maj Master Tech AVN (AF)

Sub Kishor Lal (JC-755409N), 01 Sep 2011

Sub Raju Sunagar (JC-755737F), 12 Sep 2011/01 Sep 2011\*

Sub Dan Singh (JC-755411L), 16 Nov 2011/01 Oct 2011\*

Sub Bikram Singh Mehta (JC-755606W), 04 Nov 2011/  
01 Oct 2011\*

## To be Sub Maj Master Tech Comm

Sub Suresh Kumar Tanwar (JC-755679H), 01 Sep 2011

Sub Satish Kumar (JC-756009N), 01 Nov 2011

## To be Sub Maj Master Tech B Veh

Sub Arvind Kumar (JC-755671W), 05 Sep 2011/01 Sep  
2011\*

Sub Narendra Singh Gusan (JC-755874A), 01 Oct 2011

Sub Ramesh Chand (JC-755876L), 01 Oct 2011

Sub K Durai Samy (JC-755481K), 14 Nov 2011/01 Sep  
2011\*

Sub Ram Babu Sharma (JC-755878W), 02 Nov 2011/  
01 Nov 2011\*

Sub Ganesh Sahani (JC-755881W), 04 Nov 2011/01 Nov  
2011\*

Sub Venu Gopal Nair G (JC-755875H), 08 Nov 2011/  
01 Nov 2011\*

## To be Sub Maj Master Tech Opto Elect

Sub Sujit Kumar Nath (JC-755745F), 01 Sep 2011

Sub Suseelan K (JC-754793N), 02 Jan 2012/01 Jan 2012\*

## To be Sub Maj DW

Sub Jagdish Prasad (JC-760557H), 10 Oct 2011/01 Sep  
2011\*

Sub Nawal Singh (JC-760554P), 03 Jan 2012/01 Jan 2012\*

## To be Sub Maj Master Tech Networking

Sub Raja Kaur (JC-755771F), 01 Oct 2011

Sub Om Prakash (JC-755780H), 01 Oct 2011

Sub Rabindra Kumar Behera (JC-755781L), 10 Oct 2011/  
01 Oct 2011\*

Sub Narayan Chandra Das (JC-755908H), 09 Nov 2011/  
01 Oct 2011\*

Sub Dewanand Shukla (JC-755788P), 01 Nov 2011

Sub Chandra Shekhar (JC-755752W), 15 Dec 2011/01 Oct  
2011\*

Sub Surender Singh (JC-755770Y), 02 Jan 2012/01 Jan  
2012\*

## To be Sub Maj Tech Opto Elect

Sub Bajj Nath Tiwary (JC-758947M), 01 Oct 2011

## To be Sub Maj Master Tech RDR

Sub Devendra Singh (JC-755901Y), 01 Nov 2011

Sub Shyam Singh (JC-755902F), 01 Nov 2011

Sub Raj Pal Singh (JC-755903K), 08 Nov 2011/01 Nov  
2011\*

## To be Sub Maj Master Tech Elect

Sub Jiban Chandra Lowha (JC-755846N), 01 Nov 2011

Sub Madan Kumar Singh (JC-755848Y), 04 Nov 2011/  
01 Nov 2011\*

Sub Suresh Singh Yadav (JC-755841P), 23 Nov 2011/  
01 Nov 2011\*

Sub Ram Shankar Panda (JC-754961F), 23 Jan 2012/  
01 Jan 2012\*

## To be Sub Maj Master Tech Avn Aen

Sub Rajendra Prasad (JC-755740F), 03 Nov 2011/01 Nov  
2011\*

## To be Sub Maj Opr Dvr (Rec)

Sub Samadar Lal (JC-752306K), 01 Dec 2011

## To be Sub Maj Tech SA

Sub Mohinder Singh (JC-757349H), 01 Dec 2011

## To be Sub Maj Master Tech SA

Sub Swaroop Kumar (JC-754829F), 01 Jan 2012

## To be Sub Maj SKT

Sub Satyavir Singh (JC-760143W), 04 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Sub Ram Asrey (JC-760142N), 12 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Sub Balwinder Singh (JC-760572X), 06 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Sub Mohan Singh (JC-760573A), 12 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Sub Herpal Singh Pundir (JC-760574H), 12 Jan 2012/01 Jan 2012\*

## To be Sub Maj Master Tech A Veh

Sub Vijay Pal Singh (JC-153337Y), 01 Feb 1996

## To be Sub Maj Artzn Metallurgy

Sub Ashok Kumar Singh (JC-759269K), 03 Jan 2012/01 Jan 2012\*

## To be Sub Maj Armt AFV AD

Sub Madan Mohan Mandal (JC-758492F), 10 Jan 2012/01 Jan 2012\*

## To be Sub Maj Master Tech Avn vionics

Sub Bhuvnesh Bhushan (JC-755392L), 11 Jan 2012/01 Jan 2012\*

## To be Sub Maj PTR &amp; Dectr

Sub Sohan Lal Gujar (JC-759268F), 24 Jan 2012/01 Jan 2012\*

## To be Sub Maj Support Staff

Sub Sukh Pal Singh (JC-759509W), 08 Jan 2012/01 Jan 2012\*

\*(Gtd ante dated seniority)

NK KASHMIRA  
Under Secy

## AIR BRANCH

No. 156, dated 29th March 2012—The President is pleased to make the following Substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE  
(AE BRANCH)

## To be Subs Air Cmde (AE Branch)

Air Cmde (Actg) SN Murti (15945), AE(L), 01 Apr 2009

(His name will appear below Air Cmde Praveen Kumar (15970), AE(M) in the Combined Gradation List)

Air Cmde (Actg) P Aneja (15975), AE(M), 01 Apr 2009

Air Cmde (Actg) Hemant Sharma (15941), AE(L), 01 Jun 2009

Air Cmde (Actg) KA Muthana (16372), F(P), 02 Mar 2009

(His name will appear below Air Cmde U Singh (16204), F(P) in the Combined Gradation List)

Air Cmde (Actg) AI Mehta (16377), F(P), 02 Mar 2009

Air Cmde (Actg) N Yadav (16399), F(P), 02 Mar 2009

Air Cmde (Actg) PN Pradhan (16403), F(P), 02 Mar 2009

Air Cmde (Actg) SJ Nanodkar (16555), F(P), 02 Mar 2009

Air Cmde (Actg) DK Vashisht (16565), F(P), 02 Mar 2009

Air Cmde (Actg) DS Ahluwalia (16571), F(P), 02 Mar 2009

Air Cmde (Actg) NJS Dhillon (16580), F(P), 02 Mar 2009

Air Cmde (Actg) R Sachdeva (16582), F(P), 02 Mar 2009

Air Cmde (Actg) A Subramaniam (16592), F(P), 02 Mar 2009

Air Cmde (Actg) VS Bharti (16611), F(P), 02 Mar 2009

Air Cmde (Actg) P Mullick (16669), EDN, 30 Mar 2009

AK SINGH  
Dy Dir of Personnel (Officers)-2(B)

## AIR FORCE

No. 157, dated 30th March 2012—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

INDIAN AIR FORCE  
Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

## ADM Branch

PK Shah (28242), S Bhardwaj (28228), J Srinivas (28239), P Ghosh (28240), D Sen (28241), DM Singh (28229), K Hari Prasad (28245), DS Das (28246), PN Krishnakumar (28244), JB Dash (28230), M Chandra (28234), D Singh (28235), G Kapil (28237), C Sanyal (28238), DK Chaube (28236), A Kakkar (28231), VV Shirke (28243), V Chaudhary (28227), SKH Sharma (28226), MM Purushothaman (28225), KH Nagarajan (28233), PK Singh (28232)—wef 18 Dec 2010

## LGS Branch

MC Stephen (28248), P Kumar (28252), Brajesh Kumar (28247), V K Verma (28249), S Kumar (28250), J K Patra (28251)—wef 18 Dec 2010

## ACCTS Branch

S Gupta (28256), M Kumaran Raja (28254), C Biju Kumar (28257), VN Satheesan (28253), K Ramakrishnan (28255), SS Sridhar (28258)—wef 18 Dec 2010

## MET Branch

BS Prashanth (28260), N S Appaiah (27936), S Singh (28259), MK Chandragiri (27935)—wef 18 Dec 2010

## ADM Branch

(MS) Grace Nirmala (28279), (MS) R Saini (28278), (MS) PV Dhanasree (28285), (MS) N Kaur (28275), (MS) s Bharati (28276), (MS) V Soumya (28270), (MS) S Kaur (28271), (MS) P Suganya Kamatchi (28272), (MS) T Mukila (28277), (MS) VD Kularni (28283), (MS) L Sobhana Nair (28282), (MRS) M Arora (28280), (MS) S Tatwawadi (28269), (MS) A Bist (28268), (MS) S Choudhry (28267), (MS) J Gautam (28266), (MS) P Mishra (28265), (MRS) N Suhag (28264), (MS) A Tripathi (28274), (MS) S Sharma (28273)—wef 18 Dec 2010

## LGS Branch

(MS) Bhavna Mittal (28286), (MS) A Srivastava (28287), (MS) S Cleventine (28288), (MS) PS Dhumal (28290)—wef 18 Dec 2010

## ACCTS Branch

(MS) L Mishra (28291)—wef 18 Dec 2010

## EDN Branch

(MS) P Joshi (28292)—wef 18 Dec 2010

## MET Branch

(MS) RP Patil (27937)—wef 18 Dec 2010

## ADM Branch

(MS) A Dey Chowdhury (28294)—wef 17 Jan 2011

## SHORT SERVICE COMMISSION

## ADM Branch

Anudeepti Upadhyay (28281)—wef 30 Sep 2011

Anil Sharma (29623)—wef 27 Jun 2008

TARUN KHARE

Wg Cdr

JDPO-3(D)

## (ARMY BRANCH)

No. 158, dated 30th March 2012—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 27 Dec 2010 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

## (REGULAR ARMY)

## (PERMANENT COMMISSION)

## To be Capt

Ankush Gupta (MS-15846Y) (MR-09230P), AMC, 16 Jul 2008—with seniority for pay and promotion from 16 Jul 2005 this includes 36 months antedate for Doctor of Medicine (General Medicine) which will not count for gratuity

(MoD Notification Published in Gazette of India dated 02 Jan 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Ghanashyam Swargiary (MS-15751Y) (MR-09229A), AMC, 25 Apr 2008—with seniority for pay and promotion from

25 Oct 2004 this includes 42 months antedate [36 months for Master of Surgery (General Surgery) and 06 months for house job] which will not count for gratuity

(MoD Notification Published in Gazette of India dated 01 May 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

## (FINANCE DIVISION)

No. 159, dated 2nd April 2012—The President is pleased to retire Smt. Mohini Raisinghani, Section Officer Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 29.02.2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

RAVI KATYAL

Assistant Financial Adviser (E)

## AMY BRANCH

No. 160, dated 2nd Apr 2012—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

(IC-47031) Col Arun Pratap Singh Rajpura, SM, Inf, 04 Nov 2010 (AN)

(IC-38439) Col Samir Bisara, Inf, 20 Nov 2010 (AN)

(IC-48987) Col Baljit Singh, Inf, 16 Oct 2010 (AN)

(IC-39468) Col Harjit Singh Bhagat, Inf, 21 Sep 2011 (FN)

(IC-40880) Col Rajesh Dixit, Sigs, 30 Oct 2011 (AN)

(IC-50078) Col V Sehgal, Arty, 16 Jul 2011 (AN)

(IC-49904) Col Rajeev Khullar, Inf, 19 Aug 2011 (AN)

(IC-49310) Col Sanjay Khanna, Inf, 30 Jul 2011 (AN)

(IC-49457) Col Nitin Ramakrishna Khandekar, Inf, 17 Jan 2011 (AN)

(IC-48108) Col P Rajgopalan, Inf, 04 Jan 2011 (AN)

(IC-49964) Col Rajesh Kaswan, Inf, 16 Jul 2011 (AN)

(IC-47597) Col Sandeep Singh, Inf, 26 May 2011 (AN)

(IC-50037) Col Sanket Pande, Inf, 22 Jan 2011 (AN)

VANDANA DUBE

Dy Dir

MS/PR

## ARMY BRANCH

No. 161, dated 03 Apr 2012—The President, is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Sep 2011 :—

(IC-34797) Col Anup Sinha, Arty

(IC-35181) Col Sushen Chakraborty, Arty

(IC-35193) Col (TS) Jagdish Chandra Kakati, Arty

(IC-35200) Col (TS) Khulem Sorojit Singh, Inf  
 (IC-35215) Col Sohan Singh Dhanoa, Inf  
 (IC-35560) Col Jyotirmoy Ghosal, Inf  
 (IC-35574) Col Parveen Chand Katoch, Arty  
 (IC-35588) Col (TS) Rajesh Chandra Saklani, Mech  
 Inf  
 (IC-35624) Col Sunil Kumar Behal, Arty  
 (IC-35918) Col (TS) Arvind Bhagra, AC  
 (IC-37601) Col Manik Vaid, Arty  
 (IC-37622) Col (TS), Ansuya Prasad Pant, Inf  
 (IC-37664) Col (TS) Vijay Kumar, AC  
 (IC-37724) Col (TS) Pradeep Kumar Singh, Arty  
 (IC-37729) Col B Hari Haran, AOC  
 (IC-37803) Col (TS) Ramesh Murthy, Inf  
 (IC-37827) Col (TS) Sukhbir Singh Phogat, Int Corps  
 (IC-37828) Col Shri Om Singh, Inf  
 (IC-38296) Col Vinod Kumar Sharma, Inf  
 (IC-38455) Col (TS) Gautam Mukherjee, Arty  
 (IC-38516) Col Subhash Vasant Chaudhari, Inf  
 (IC-38606) Col Rajat Rastogi, Engrs  
 (IC-38807) Col (TS) Neeraj Kumar Verma, Inf  
 (IC-38867) Col (TS) Ashwani Kumar Vohra, Arty  
 (IC-39397) Col (TS) Rambabu Paleti, ASC  
 (IC-39399) Col Harisimran Singh Sandhu, AEC  
 (IC-39424) Col (TS) Kamal Kumar, AEC  
 (IC-40297) Col Dhinesh Singh Chauhan, EME  
 (IC-41053) Col (TS) Jagdish Prasad Sharma, Sigs  
 (IC-41918) Col (TS), Kanakeel Ravi, Sigs  
 (IC-42326) Col (TS) Avtar Singh, Inf  
 (IC-42486) Col (TS) Bhag Singh, Inf  
 (IC-42705) Col (TS) Ramendra Mathur, Engrs  
 (IC-43114) Col (TS) Jhaman Singh Gurung, AC  
 (SL-03679) Col Reghu Kumara Pillai KN, EME  
 (SL-03826) Lt Col Prafulla Kumar Pal, EME  
 (SL-03874) Lt Col Kulwant Singh, Engrs  
 (SL-03980) Lt Col Murugesan S, Sigs  
 (SL-04235) Lt Col M Francis Xavier, QM

JAYANTA CHAKRABARTY  
 Dy Dir  
 MS-7A

#### ARMY BRANCH

No. 162, dated 03 Apr 2012—The President is pleased to retire the undermentioned officers on

attaining the age of superannuation as indicated against each :—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION (ARMY MEDICAL CORPS)

(MR-04301F) Maj Gen MN Sree Ram, PC, 31 Jul 2011(AN)  
 (MR-04632H) Brig SN Mohanty, PC, 30 Jun 2011(AN)  
 (MR-04419H) Brig Kailash Chand, PC, 31 Oct 2011(AN)  
 (MR-03873W) Col MS Bishnoi, PC, 30 Apr 2011(AN)  
 (MR-04648N) Col Surendra Kumar, PC, 30 Jun 2011(AN)  
 (MR-04539F) Col NV Subba Rao, PC, 30 Jun 2011(AN)  
 (NTR-16510L) Col Praveen Kumar, PC, 31 Jul 2011(AN)  
 (NTR-16441,) Col MC Bisht, PC, 31 Jul 2011(AN)  
 (NTR-16543W) Col Om Prakash, PC, 28 Feb 2011(AN)  
 (NT-16490H) Col Krishan Chander, PC, 31 May 2011(AN)  
 (MR-04335P) Brig Virendra Bhatnagar, PC, 31 Aug 2011(AN)  
 (MR-04128H) Brig KK Sharma, PC, 31 Oct 2011 (AN)  
 (MR-05851W) Col K N Tripathi, PC, 31 Jul 2011(AN)  
 (MR-04536N) Col VK Arora, PC, 31 Aug 2011 (AN)  
 (MR-05768Y) Col A Asthana, PC, 31 Aug 2011 (AN)  
 (MR-03473K) Col A Ganapathy, PC, 30 Sep 2011 (AN)  
 (MR-05094M) Col CS Panda, PC, 30 Sep 2011 (AN)  
 (MR-04325L) Col AK Das, PC, 31 Jan 2011 (AN)  
 (MR-03709N) Col Jayanta Dutta, PC, 31 Jul 2011 (AN)  
 (MR-04846Y) Col (TS) Gopraj Chakrabarty, PC, 31 Jul 2011  
 (AN)  
 (MR-04652W) Col (TS) Pradeep Sethi, PC, 30 Sep 2011 (AN)  
 YASH PANDE  
 Brig  
 Dy DGAFMS (HR)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 163, Dated 04 Apr 2012—Consequent upon attaining the age of superannuation on 09 Jan, 2010 and on expiry of two years extension of service granted to him vide Government of India, Ministry of Defence letter No. DOP/05/50275/M/01/3035/D(R&D) dated 30 Sep, 2009 K R Shankar, Sc 'G', Director of CV&E, DRDO HQ has been retired from service with effect from 31 Jan, 2012 (A/N) and transferred to pension establishment with effect from 01 Feb 2012 (F/N)

Consequent upon attaining the age of superannuation, Harkesh Singh, Sc. 'F', SA to COAS, DRDO HQ has been retired from service with effect from 31 Jan 2012 (A/N) and transferred to pension establishment with effect from 01 Feb 2012 (F/N)

PRADEEP KUMAR  
 Dy Dir (Pers)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012